



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 25—जुलाई 1, 2011 (आषाढ़ 4, 1933)

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25—JULY 1, 2011 (ASADHA 4, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
 the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना सचिव शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2011

सं. 276, दिनांक 19 मई 2011—राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियां
 करती हैं:—

सेना शाखा

नियमित सेना

सं. 275, दिनांक 19 मई 2011—राष्ट्रपति सहर्ष, यथा संशोधित थल
 सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करती है:—

स्थायी कमीशन

नियमित सेना

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

स्थायी कमीशन

रैंक, नाम, आईसी नं., आर्म एवं ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी
 तिथि

लेफिट के पद पर (परख पर)

कर्नल दिलबर सिंह (आईसी-38549), ग्रेन, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठता
 परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

प्रतीक वर्मा (एमआर-09100एम), एएमसी, 09 सितम्बर 2010

कर्नल डी एस सराओ (आईसी-37018), आर्टी, 01 अगस्त 2008 से
 ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

अजय चौहान (एमआर-09001पी), एएमसी, 09 सितम्बर 2010

कर्नल ए एस पुरी (आईसी-38675), महार, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठता
 परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

ब्रिगे यश पांडे

कर्नल के के एन थक्कर (आईसी-38725), ग्रेन, 13 मार्च 2009 से
 ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

ब्रिगे

उप भारतीय निदेशक सं से चिसे (मा सं)

कर्नल कृष्णा कुमार एवीएसएम, (आईसी-38736), मद्रास, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल यू पी एस पठानिया (आईसी-39082), मैक इंफ, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के गुप्ता (आईसी-39122), मराठा लाईट इंफ, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल विनोद रैजादा, एस एम (आईसी-39147), गढ़वाल राइफल, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल डी एस त्रिपाठी (आईसी-39214), आर्टी, 05 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल विनोद बत्रा (आईसी-39225), एओसी, 09 सितम्बर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल डी अग्निहोत्री (आईसी-39229), मैक इंफ, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे एस वीरक एस एम (आईसी-39260), सिख, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी एन चौधरी (आईसी-38667), आर्टी, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल मंजीत मेहता, एस एम (आईसी-38673), जैक रिफ, 13 फरवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ललित पांडे, वीएसएम (आईसी-37736), मैक इंफ, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी के शर्मा (आईसी-37738), जैग, 01 जनवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अरबिन्द ठाकुर (आईसी-37745), आर्ट्ड 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल के सी महाजन (आईसी-37751), एओसी, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल दिनाकर आदीब (आईसी-37768), जैग, 01 जनवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी जी रामकृष्णन (आईसी-37769), सिङ्गल, 01 जनवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर गुप्ता (आईसी-37782), एएडी, 01 जनवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एन खना (आईसी-37793), जैग, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एस कोहली (आईसी-39434), आर्ट्ड, 01 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल संजीव बजाज (आईसी-39435), इंजी (जी सी), 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस के सैनी, वार्डीएसएम, वीएसएम (आईसी-39436), जाट, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस टी उपसैनि, एसएम (आईसी-39437), जाट, 01 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी सी थिम्या (आईसी-39438), मैक इंफ, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी जार्ज (आईसी-39439), आर्टी (जी सी), 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल राजबीर सिंह (आईसी-39441), पैरा, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एस खारा (आईसी-39443), आर्टी, 04 फरवरी 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस एस हसबनिस (आईसी-39445), इंजी (जीसी), 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अप्रितपाल सिंह (आईसी-39450), आर्ट्ड, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एस घूरा (आईसी-39457), राज रिफ, 13 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए पी देरे (आईसी-39458), आर्ट्ड, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एच ठाकुर (आईसी-39464), एससी, 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए जे एस बेदी (आईसी-39465), गढ़वाल राईफल, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एम गुप्ता (आईसी-39470), असम, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे के मार्वल (आईसी-39472), ग्रेन, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अरून कुमार (आईसी-39488), इंजी (जी सी), 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के दास, एससी (आईसी-39491), सिख, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए चौहान (आईसी-39492), 11 जी आर, 01 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल सिद्ध फेरननदेस, एसएम (आईसी-39500), बिहार, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए पी सिंह (आईसी-39501), एएडी, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस वी सज्जन (आईसी-39506), महार, 01 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल रजत जैरथ (आईसी-39508), एएडी, 01 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल सुधीर लांबा (आईसी-39510), आर्टी, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल नीरज वर्मा (आईसी-39512), आर्टी, 01 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वाई टी जैन (आईसी-39521), आर्टी (जी सी), 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे एस नेगी, वीएसएम (आईसी-39522), डोगरा, 21 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के राघव(आईसी-39523), आर्टी, 04 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे के डंग (आईसी-39545), डोगरा, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल हरविजय सिंह (आईसी-39546), सिग्नल, 01 जनवरी 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी एस वर्मा (आईसी-39560), मैक इंफ, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल विनोद पंत (आईसी-39565), सिग्नल, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी आर एस चौधरी (आईसी-39569), आर्टी, 01 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल हरिहरन रवि (आईसी-39577), सिग्नल, 01 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल राजिव चौपरा (आईसी-39579), आर्टी, 07 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल बलराज सिंह (आईसी-39581), इंजी, 14 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे एन नायर (आईसी-39583), ईएमई, 14 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एच ठकराल (आईसी-39590), सिख लाइ, 01 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए अस्थाना (आईसी-39604), 11 जीआर, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आई एस घुमन (आईसी-39607), गाइर्स, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एन के भाटिया, एस एम (आईसी-39608), इंट, 17 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए ओहरी (आईसी-39609), कुमाऊँ, 21 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर के गुप्ता (आईसी-39616), एएडी, 17 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी एस सनवल (आईसी-39617), राजपूत, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर के भारद्वाज (आईसी-39621), आर्टी (जी सी), 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी एम बलि, वीएसएम (आईसी-39624), पंजाब, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस एस रुहिल (आईसी-39636), इंफ, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एन सनल कुमार (आईसी-39646), बिहार, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल दीपक अरोरा (आईसी-39653), आर्टी, 01 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एच पी एस पाल (आईसी-39669), मैक इंफ, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जे एस यादव, एसएम (आईसी-39673), आर्म्ड, 19 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल विजय सिंह, एसएम (आईसी-39675), 9 जीआर, 09 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल डी बी एस राना, बीएसएम (आईसी-39676), जैक लाइ, 04 जुलाई 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस के सिंह (आईसी-39682), आर्टी, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए हुसैन (आईसी-39700), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर श्रीवास्तव (आईसी-39739), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल हरपाल सिंह (आईसी-39751), एसी, 09 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल के के पंत (आईसी-39780), राज रिफ, 09 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर एस शर्मा (आईसी-41437), इंजी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम एस वाधवा (आईसी-41439), ईएमई, 20 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के बिस्वास (आईसी-41444), इंजी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर के आनंद, बीएसएम (आईसी-41456), सिग्नल, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल विनोद के अदप्पा, एसएम (आईसी-37813), सिख, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी कुमार (आईसी-37833), गढ़वाल राईफल, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर गंगेले (आईसी-37840), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल टी प्रसाद (आईसी-37855), जैग, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल बी डी डोगरा (आईसी-39864), एसी, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम मैथूज, बीएसएम (आईसी-39865), इंजी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस श्रीवास्तव (आईसी-39868), आर्टी (जीसी), 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के अहूजा (आईसी-39869), मैक इंफ, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस के माथुर (आईसी-39870), ईएमई, 20 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल तरनजीत सिंह (आईसी-39874), एसी, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के धर, एसएम** (आईसी-39879), पैरा, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एच के कलरा (आईसी-39885), डोगरा, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अश्वनी शर्मा (आईसी-39888), ईएमई, 01 मई 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल डी एन अहूजा (आईसी-39898), इंजी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल पी एस संधु (आईसी-39909), मैक इंफ, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अनिल सोफत (आईसी-39911), एएडी, 01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल के एस शाजी (आईसी-39921), मराठा लाईट, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल सरनजीत सिंह (आईसी-39929), सिख लाइ, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल बी पी एस भाकुनि (आईसी-39930), डोगरा, 15 जून 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए वधवा, बी एस एम (आईसी-39943), इंजी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जी एस संघा, एस एम, वी एस एम (आईसी-39956), घेन, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल कंवलजीत सिंह (आईसी-39959), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी एस रंधावा (आईसी-39966), ईएमई, 19 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल सी के रमेश (आईसी-39968), मराठा लाइ, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल संदीप आटे (आईसी-39970), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए माथुर (आईसी-39972), जैक रिफ, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एन एस राव (आईसी-39977), आर्टी, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम के यादव (आईसी-39988), गढ़वाल राईफल, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अनूप कुमार वी (आईसी-39992), मराठा लाइ, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस एस ममक (आईसी-39995), आर्टी, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर सभरवाल (आईसी-39996), सिग्नल, 01 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल सनदीपन हांडा (आईसी-40003), एएवीएन, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वाई वी के मोहन, एसएम (आईसी-40007), 11 जीआर, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस बी सिंह (आईसी-40008), आर्टी, 05 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अमरदीप सिंह (आईसी-40012), एएससी, 15 अप्रैल 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल ए के भट्ट (आईसी-40022), 9 जीआर, 01 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस पी एस कोहली (आईसी-40028), इंजी, 01 मई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल के एस सेल्वन (आईसी-40030), 4जीआर, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस कनल (आईसी-40031), आर्टी, 01 मई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस सभरवाल (आईसी-40033), आर्टी, 01 मई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल जी जे सिंह (आईसी-40060), आर्टी, 01 मई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी सी चित्रे, वीएसएम (आईसी-40064), आर्टी (जी सी), 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल अमरदीप सिंह, वीएसएम (आईसी-40078), एएवीएन, 01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम डी सिंह, एसएम (आईसी-40091), गाइर्स, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल एम सिंह (आईसी-40094), आर्टी (जी सी), 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल दुष्टंत सिंह (आईसी-40098), मराठा लाइ, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल गिरीश गोगिया (आईसी-40099), मद्रास, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर के जगा (आईसी-40101), आर्म्ड, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल अनिल शर्मा (आईसी-40106), जाट, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस सी मेसयेन, वीएसएम (आईसी-40133), महार, 01 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस शर्मा (आईसी-40156), सिग्नल, 25 मई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल एल एन एस कुमार (आईसी-40164), आर्टी, 05 जुलाई 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल डी एस ग्रेवाल (आईसी-40167), कुमॉऊ, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल टी के सचदेव (आईसी-40186), आर्टी, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर गोपाल, एसएम (आईसी-40235), 8 जीआर, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी नांगिया, एस एम (आईसी-40240), कुमॉऊ, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल वी पुरी (आईसी-40248), आर्टी, 07 अगस्त 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल एस के चबड़ा (आईसी-40257), एसएसी, 01 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल दीपक शर्मा (आईसी-41814), इंजी, 01 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर जी गोस्वामी (आईसी-41817), ईएमई, 19 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2008 से दी जायेगी

कर्नल आर छिक्कर (आईसी-41839), सिग्नल, 01 जून 2009 से ज्येष्ठा परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जुलाई 2008 से दी जायेगी

आर बी अस्थाना
निर्देशक/एमएस(एक्स)

सेना शाखा

सं. 277, दिनांक 20 मई 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की समने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
मेजर के पद पर

सामुअल लालरिनतूलू अनगा (एम एस-15425डब्ल्यू) (एम आर-09102एक्स), एमसी 13 अक्टूबर 2010

रनजीता अगोमचनु (एम एस-15438एन) (एम आर-09070ए), एमसी 22 जुलाई 2010

कमल कुमार (एम एस-15119एफ) (एम आर-09092वाई), एमसी 16 जून 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सोनवणे श्रीकांत अशोकराव (एम एस-15215डब्ल्यू) (एम आर-09088डब्ल्यू), एमसी, 20 जनवरी 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 28 अगस्त 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

वरुण कुमार गुप्ता (एम एस-15401एम) (एम आर-09087एन), एमसी 20 जनवरी 2010

नीतू लाल (एम एस-15618डब्ल्यू) (एम आर-09067ए), एमसी 06 सितम्बर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 अगस्त 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

पुनीत दीवान (एम एस-14943के) (एम आर-09069एल), एमसी 27 दिसम्बर 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

पंडया कपिल हरेशकुमार (एम एस-15191एक्स) (एम आर-09066एक्स), एमसी 20 जनवरी 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 28 अगस्त 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कपान के पद पर

हिमांशु शर्मा (एम एस-15273ए) (एम आर-09086एल), एमसी 20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

संतोष कुमार सिंह (एम एस-15285पी) (एम आर-09082पी), एमसी 20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

पुनीत दीवान (एम एस-14943के) (एम आर-09069एल), एमसी 27 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दीनेश भारद्वाज (एम आर-08876एन), एमसी, 11 फरवरी 2010

यश पांडे

ब्रिगे
उप महानिदेशक संसेचिसे (मा सं)

(थल सेना शाखा)

सं. 278, दिनांक 20 मई 2011—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं :—

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कार)

स्थायी सूबेदार मेजर (ड्राईवर)

सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-695154एम), 16 सितम्बर 2009

सूबेदार हरी प्रसाद भट्टेय (जेसी-695262डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-695601एल), 01 जनवरी 2011

सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-695263वाई), 01 जनवरी 2011

स्थाई सूबेदार मेजर (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

सूबेदार त्रिलोक सिंह (जेसी-695164डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार कल्याण कोंगरी (जेसी-695165वाई), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार प्रावत सिन्हा (जेसी-695166एफ), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार स्वर्ण लाल (जेसी-695153के), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार जितेन्द्र लाल (जेसी-695194एन), 01 दिसम्बर 2010

स्थायी सूबेदार (ड्राईवर)

नायब सूबेदार देबेन सिंह (जेसी-696052एच), 01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-696053एल), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार देवनारायण मिश्रा (जेसी-696054एन), 23 मार्च 2010

नायब सूबेदार सिगमनी एम (जेसी-696055डब्ल्यू), 23 मार्च 2010

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-696110एफ), 08 मई 2010

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-696143एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुनील दत्त नैथानी (जेसी-696111के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार हरेन्द्र राय (जेसी-696177ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-696144पी), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रविन्द्र नाथ कुंवर (जेसी-696145एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार (जेसी-696113पी), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार अबध बिहारी शर्मा (जेसी-696146ए), 01 जनवरी 2011

स्थायी नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार राजेन्द्र कुमार सिंह (सं 13961872पी अब जेसी-697784एल), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार सुशील कुमार शर्मा (सं 13961895डब्ल्यू अब जेसी-697769डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार राजेन्द्र यादवा (सं 13961680एक्स अब जेसी-697770एल), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार रमेश कुमार (सं 13961996के अब जेसी-697785एन),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार धरम सिंह (सं 13961991एल अब जेसी-697786डब्ल्यू),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार अशोक कुमार रजक (सं 13962055एच अब जेसी-697771एन), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं 13962130एफ अब जेसी-697772डब्ल्यू),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं 13962125डब्ल्यू अब जेसी-697773वाई),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार राज कुमार (सं 13962127एफ अब जेसी-697814एक्स),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार कलसैत कमलाकर राम भाऊ (सं 13962280एक्स अब जेसी-697815ए), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार ब्रजेश कुमार (सं 13962317एन अब जेसी-697787वाई),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार केवल सिंह यादव (सं 13962328ए अब जेसी-697774एफ),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार डी सेलवाराज (सं 13962385एफ अब जेसी-697788एफ),

01 अक्टूबर 2010

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी (सं 13962396एन अब जेसी-697789के), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार जे मोहन राजू (सं 13962416डब्ल्यू अब जेसी-697790वाई), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार रवी सी (सं 13962413एच अब जेसी-697775के),
01 अक्टूबर 2010हवलदार माखन लाल (सं 13962574एल अब जेसी-697791एफ),
01 अक्टूबर 2010हवलदार राम सजीवन (सं 13962575एन अब जेसी-697816एच),
01 अक्टूबर 2010(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार गौहन रमेश बाबू राव (सं 13962507ए अब जेसी-697817एल), 01 नवम्बर 2010

हवलदार राधा कृष्णन चाथा नट (सं 13962557एल अब जेसी-697792के), 01 नवम्बर 2010

हवलदार लाल सिंह (सं 13962513एन अब जेसी-697776एम),
01 नवम्बर 2010हवलदार हितेश्वर बोरा (सं 13962625एन अब जेसी-697818एन),
01 नवम्बर 2010

हवलदार सत्यबीर (सं 13962602एम अब जेसी-697906के),
01 नवम्बर 2010

हवलदार मोहन राम (सं 13962696पी अब जेसी-697777पी),
01 नवम्बर 2010

हवलदार फूल चन्द गूजर (सं 13960533एच अब जेसी-697793एम), 01 नवम्बर 2010

हवलदार करुनाकर दलई (सं 13962474ए अब जेसी-697794पी),
01 नवम्बर 2010

हवलदार श्याम कुमार साह (सं 13962695एम अब जेसी-697819डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

हवलदार जयन्ता मजूमदार (सं 13962756वाई अब जेसी-697933एन), 01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिव शंकर प्रसाद यादव (सं 13962746पी अब जेसी-697820एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार अरविन्द सिंह (सं 13961698एन अब जेसी-697821एन),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार शिंदे जयकर भीम राव (सं 13962972एम अब जेसी-697822डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार विश्वनाथ बलराम पाटिल (सं 13962971के अब जेसी-697823वाई), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

कुलवन्त राणा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 279, तारीख 23 मई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-803679एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-803680एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार रमजीराम गोदारा (जेसी-803682एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-803683एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-803685डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार/लिपिक समीर कुमार विस्वास (जेसी-803958एन),
01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार गोपाल जी सिंह (जेसी-803687एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रियासत (जेसी-803691के), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार श्रवण कुमार (जेसी-803694एक्स), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार दिनेश बाबू (जेसी-803700ए), 01 फरवरी 2011

प्रेम प्रकाश
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं 280, तारीख 23 मई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जीडी) के रैक में

हवलदार रनवीर सिंह (सं 10181321एफ अब जेसी-842848पी),
25 जनवरी 2011*

हवलदार श्री पाल सिंह (सं 10478721एफ अब जेसी-842853ए),
04 फरवरी 2011*

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं 3974251एक्स अब जेसी-842862एफ),
04 जनवरी 2011*

हवलदार फुरबा शेरिंग लामा (सं 5241548वाई अब जेसी-842863के),
22 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं 4054326एच अब जेसी-842898ए),
01 फरवरी 2011**

हवलदार जोग राज (सं 9078932एम अब जेसी-842899एच),
01 फरवरी 2011**

हवलदार प्रभाकरन पी पी (सं 10289701के अब जेसी-842907डब्ल्यू),
09 फरवरी 2011**

हवलदार सतनाम सिंह (सं 14317103के अब जेसी-842909एफ),
01 फरवरी 2011**

हवलदार विजय कुमार (सं 10361323पी अब जेसी-842910डब्ल्यू),
01 फरवरी 2011**

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं 10361162एक्स अब जेसी-842911वाई),
01 फरवरी 2011**

हवलदार भूपिंद सिंह (सं 13743071एफ अब जेसी-842912एफ),
01 फरवरी 2011**

हवलदार दीपक गुरुंग (सं 1262357वाई अब जेसी-842913के),
01 फरवरी 2011**

**(नायब सूबेदार के रैक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011)

हवलदार श्याम सिंह (सं 6463914एक्स अब जेसी-842918एच),
01 मार्च 2011***

हवलदार इंद्रजीत सिंह (सं 2472299एन अब जेसी-842920ए),
01 मार्च 2011****

हवलदार मुख्यार सिंह (सं 14337366के अब जेसी-842921एच),
01 मार्च 2011***

हवलदार बख्तीश सिंह (सं 3376768के अब जेसी-842925वाई),
01 मार्च 2011***

हवलदार धूव सिंह (सं 4060538के अब जेसी-842928एम),
01 मार्च 2011***

हवलदार मनशा राम (सं 2470326एन अब जेसी-842929पी),
01 मार्च 2011****

***(नायब सूबेदार के रैक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में

हवलदार लिपिक एम डी बज़लुर रहमान (सं 8022600ए अब
जेसी-842897एक्स), 01 फरवरी 2011****

***(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 281, दिनांक 24 मई 2011--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैक में

संतोश कुमार के (जेसी-761582एन), 01 जनवरी 2011

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैक में

बद्री नाथ गुरुंग (जेसी-759606एन), 02 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर
2010*

सूबेदार कलर्क (एसडी) के रैक में

श्रतिय प्रताप सिंह (जेसी-760771एल), 04 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

अजय प्रकाश सिंह शंके (जेसी-760831पी), 01 जनवरी 2011

ज्ञान चंद शर्मा (जेसी-760832एक्स), 01 जनवरी 2011

मनेजर चौधरी (जेसी-760769एन), 01 जनवरी 2011

सुरेश कुमार (जेसी-760906एफ), 01 जनवरी 2011

श्री क्रिष्ण पांडे (जेसी-760768एल), 01 जनवरी 2011

राज कुमार सिंह (जेसी-760772एन), 01 जनवरी 2011

अनिल कुमार सिंह पाल (जेसी-760587ए), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैक में

ब्रिज किशोर सिंह (जेसी-759618एच), 01 जनवरी 2011

पाठिल हनमांत महादेव (जेसी-759818वाई), 01 जनवरी 2011

ओम चंद (जेसी-759711के), 01 जनवरी 2011

कृष्ण एस (जेसी-759621एच), 01 जनवरी 2011

खुब कारन गंगावर (जेसी-759626एफ), 01 जनवरी 2011

सूबेदार टेक स्माल आर्स के रैक में

अमल चंद्र सरकार (जेसी-761797एम), 01 जनवरी 2011

वकील सिंह कुशवाहा (जेसी-762455एल), 01 जनवरी 2011

ओम प्रकाश राय (जेसी-761388वाई), 01 जनवरी 2011

ब्रह्म पाल सिंह (जेसी-761386एन), 01 जनवरी 2011

शेलर शिवाजी समपत (जेसी-761467एन), 01 जनवरी 2011

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैक में

अरविंद कुमार (जेसी-763962एल), 01 जनवरी 2011

राम अयोध्या प्रसाद (जेसी-763959एल), 04 जनवरी 2010/
01 जनवरी 2010*

सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैक में

रमेश कुमार डोगरा (जेसी-759639वाई), 01 जनवरी 2011

सूबेदार फिटर (ए एफ वी/ए डी) के रैक में

विजय कुमार (जेसी-759624डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैक में

काल्लपा गौरव (जेसी-759685एन), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार रदिओ के रैक में

चंदन कुमार सांधा (जेसी-759620ए), 01 जनवरी 2011

सूबेदार फिटर (एफडी) के रैक में

एम सुब्रामनि (जेसी-759620ए), 01 जनवरी 2011

सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में	हवलदार असित कुमार संत्रा (सं. 14613920के अब जेसी-765553डब्ल्यू), 23 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
राम मोहन (जेसी-759643एफ), 01 जनवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में
श्याम किशोर श्रीवास्तवा (जेसी-759645एम), 01 जनवरी 2011	हवलदार कमल कुमार (सं. 14598340पी अब जेसी-765213पी), 15 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
सूबेदार एस के टी के रैंक में	हवलदार जिजु मैथू (सं. 14597701डब्ल्यू अब जेसी-765510एफ), 21 नवम्बर, 2010/17 अक्टूबर, 2010*
साद राम (जेसी-763248एल), 27 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*	हवलदार निरंजन पाल (सं. 14596397एफ अब जेसी-765507एफ), 18 नवम्बर, 2010/17 अक्टूबर, 2010*
सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में	हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 14594838एक्स अब जेसी-765454एन), 01 नवम्बर, 2010
बाबुल चंद्रा नाथ (जेसी-759616एक्स), 31 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*	हवलदार जगदीश हजारिका (सं. 14597556के अब जेसी-765517एल), 01 नवम्बर, 2010
प्रित पाल सिंह (जेसी-759628एम), 01 जनवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में
सूबेदार टेक रडार के रैंक में	हवलदार दलबिर सिंह (सं. 14585985वाई अब जेसी-765431एम), 01 नवम्बर, 2010
मानोज कमार द्वारे (जेसी-760343एम), 01 जनवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
दिलीप कुमार वर्मा (जेसी-759687वाई), 01 दिसम्बर 2010	हवलदार राम पाल सिंह (सं. 14583622डब्ल्यू अब जेसी-765244एन), 17 नवम्बर, 2010/01 अक्टूबर, 2010*
सूबेदार टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में
बाबू लल मुंदेल (जेसी-763882एन), 01 जनवरी 2011	हवलदार लखपति सिंह (सं. 14623789एल अब जेसी-765533एच), 22 नवम्बर, 2010/03 अक्टूबर, 2010*
सूबेदार मास्टर टेक इंजीनियर इक्विपमेंट के रैंक में	हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14627345वाई अब जेसी-765543एम), 01 दिसम्बर, 2010
अशोक कुमार सिंह (जेसी-759641डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार लिम्ब मैकर के रैंक में
सूबेदार मास्टर टेक स्माल आर्स के रैंक में	हवलदार केदार प्रसाद सिंह (सं. 14587086डब्ल्यू अब जेसी-765569एफ), 27 नवम्बर, 2010/14 नवम्बर, 2010*
एस कादर कराई (जेसी-761385एल), 01 जनवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में
सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ई)	हवलदार जोयदेब दास (सं. 14611763के अब जेसी-765452एच), 26 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
कुलदीप सिंह (जेसी-760951एन), 05 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*	हवलदार जसवंत सिंह (सं. 14612270पी अब जेसी-765453एल), 02 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में	हवलदार प्रदीप के (सं. 14612959के अब जेसी-7652501ए), 01 नवम्बर, 2010
आनंद सिंह रावत (जेसी-759607डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010	हवलदार शशी कांत राय (सं. 14613117एल अब जेसी-765504एन), 01 दिसम्बर, 2010
सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में	हवलदार से नायब सूबेदार वैल्डर के रैंक में
राम किशन (जेसी-762493एफ), 01 दिसम्बर 2010	हवलदार चंचल सिंह (सं. 14582362के अब जेसी-765578एच), 01 दिसम्बर, 2010
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है	
हवलदार से नायब सूबेदार सपोर्ट स्ट्याफ (ई आर) के रैंक में	
हवलदार राम नरायण साह (सं. 14581832एक्स अब जेसी-765418एच), 16 अक्टूबर, 2010/01 सितम्बर, 2010*	
हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में	
हवलदार नरसिंह चरण साह (सं. 14613979एच अब जेसी-765312डब्ल्यू), 01 नवम्बर, 2010	
हवलदार किशन लाल जाट (सं. 14613559के अब जेसी-765315के), 01 नवम्बर, 2010	

हवलदार राम कांत प्रसाद (सं. 14577623एच अब जेसी-765450एक्स), 01 नवम्बर, 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में
हवलदार भूपथी रेडडी (सं. 14598871एम अब जेसी-765515ए),
08 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार अर्ममेन्ट टेक (ए एफ वी/ए डी) के रैंक
में

हवलदार रुद्रा पाल सिंह (सं. 14574872डब्ल्यू अब जेसी-
765445एम), 03 नवम्बर, 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में
हवलदार विजया शंकर यादव (सं. 14575186पी अब जेसी-
765411वाई), 07 अक्तूबर, 2010/01 अक्तूबर, 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
हवलदार जोजिप्पन अतोनि (सं. 14636515वाई अब जेसी-
765518एन), 11 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार होरेंद्रा सिंह (सं. 14574414ए अब जेसी-765521एन),
13 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार आंटो टेक बी व्हीकल के रैंक में
हवलदार संजय कुमार पांडेय (सं. 14576233एन अब जेसी-
76562एम), 01 दिसम्बर, 2010

हवलदार कैलाश चंद्रा सिंह (सं. 14574783एक्स अब जेसी-
765442वाई), 01 नवम्बर, 2010

हवलदार शोकहरन सिंह (सं. 14576228एच अब जेसी-765460एफ),
01 दिसम्बर, 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
हवलदार शिव पाल गुजर (सं. 14625342एम अब जेसी-765473वाई),
02 नवम्बर, 2010/01 अक्तूबर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक
में

हवलदार गुर शिवनंदन जी सिंह (सं. 14607743वाई अब जेसी-
765493एम), 01 दिसम्बर, 2010

हवलदार हरेन्द्रा कुमार सिंह (सं. 14636424पी अब जेसी-765479ए),
03 नवम्बर, 2010/01 अक्तूबर, 2010*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में
हवलदार सीत राम केल्वा (सं. 14613880एन अब जेसी-765561पी),
01 दिसम्बर, 2010

हवलदार बनरि लाल शर्म (सं. 14614021पी अब जेसी-765568वाई),
01 जनवरी, 2011

हवलदार आइदिआ नागेश्वर राव (सं. 14601905एच अब जेसी-
765552एन), 22 जनवरी, 2011/31 अक्तूबर, 2010*

हवलदार मानष सिंह राय (सं. 14613919पी अब जेसी-765564एच),
01 दिसम्बर, 2010

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

हवलदार करमवीर सिंह मलिक (सं. 14593312एम अब जेसी-
765618वाई), 01 जनवरी, 2011

हवलदार श्री निवास पाल (सं. 14593014एच अब जेसी-765622पी),
01 जनवरी, 2011

हवलदार जोगा सिंह (सं. 14586818पी अब जेसी-765615एल),
01 जनवरी, 2011/05 दिसम्बर, 2010*

हवलदार सत्यवीर (सं. 14592272डब्ल्यू अब जेसी-7655616एन),
01 जनवरी, 2011

हवलदार सतीश कुमार सिंह (सं. 14593011पी अब जेसी-
765620डब्ल्यू), 01 जनवरी, 2011

हवलदार पारस नाथ सिंह (सं. 14593029एल अब जेसी-765623के),
01 जनवरी, 2011

हवलदार जनेन्द्रा नाथ गुप्त (सं. 1459208के अब जेसी-
765617डब्ल्यू), 01 जनवरी, 2011

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 14589835के अब जेसी-765613ए),
01 जनवरी, 2011/10 अक्तूबर, 2010*

हवलदार सातेन्द्रा सिंह (सं. 14592756डब्ल्यू अब जेसी-765621वाई),
01 जनवरी, 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी व्हीकल) के रैंक में

हवलदार एस के अन्नेर आली (सं. 1462206डब्ल्यू अब जेसी-
765703एफ), 01 जनवरी, 2011/01 दिसम्बर, 2010*

हवलदार आजया कुमार जैस्वल (सं. 14620988एन अब जेसी-
765673पी), 31 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार मनोकामना तिवारी (सं. 1462268डब्ल्यू अब जेसी-
765702वाई), 15 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*

हवलदार के प्रभाकर (सं. 14620490एन अब जेसी-765668के),
27 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार रनधीर श्रीकृष्णा देव राम (सं. 14620994एफ अब
जेसी-765674एक्स), 21 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

हवलदार काली चरण मोहन्त्य (सं. 14622055एक्स अब
जेसी-765758एल), 05 जनवरी 2011/01 दिसम्बर, 2010*

हवलदार चित्रजन कुमार (सं. 14621265एल अब जेसी-765687पी),
31 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*

हवलदार राजेश सिंह राठोरे (सं. 14619843डब्ल्यू अब
जेसी-765654के), 01 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*

- हवलदार एम डी रसीद (सं. 14620872एक्स अब जेसी-765670एफ),
05 जनवरी, 2011/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार ब्रह्मनंद सिंह (सं. 14620366एम अब जेसी-765665डब्ल्यू), 24 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
- हवलदार चंदेश्वर राय (सं. 14621023एच अब जेसी-765681एन),
22 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार सुनील के ए (सं. 14620038वाई अब जेसी-765660एक्स),
28 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
- हवलदार सुरेश परमार (सं. 14621989एच अब जेसी-765701डब्ल्यू),
27 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर 2010*
- हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 14620142एम अब जेसी-765661ए), 05 नवम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
- हवलदार बस्सप्पा चौडगला (सं. 14622077डब्ल्यू अब जेसी-765760एच), 08 जनवरी, 2011/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार कैलाश चंद्र गुर्जर (सं. 14621638एन अब जेसी-765691एक्स), 21 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार राजेन्द्र कुमार नकटोडे (सं. 14621616पी अब जेसी-765689ए), 23 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार ओम प्रकाश बसवना (सं. 14620707एम अब जेसी-765675ए), 23 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
- हवलदार घन श्याम तिवारी (सं. 14620717डब्ल्यू अब जेसी-765677एल), 28 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में
- हवलदार हमीद अली (सं. 14584485पी अब जेसी-765722एम),
07 जनवरी, 2011/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार जितेन्द्रा कुमार (सं. 14585085पी अब जेसी-765725ए),
06 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*
- हवलदार एम ईस्वरण (सं. 14584202एच अब जेसी-765638एम),
20 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार रविन्द्रा कुमार सिंह (सं. 14584471पी अब जेसी-765721के),
01 जनवरी, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार राम कुमार यादव (सं. 14584103ए अब जेसी-765636एफ),
11 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (ए एफ वी/ए डी) के रैंक में
- हवलदार ब्रिज किशोरे (सं. 1578259एफ अब जेसी-7655742ए),
03 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ए व्हीकल) के रैंक में
- हवलदार सुरेन्द्रा बाबू जी सी (सं. 14620770एफ अब जेसी-765767एम), 05 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*
- हवलदार संजया कुमार सिंह (सं. 14621335वाई अब जेसी-765772एक्स), 07 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*
- हवलदार अखिलेश के (सं. 14622069एक्स अब जेसी-765759एन),
06 जनवरी, 2011/10 दिसम्बर 2010
- हवलदार हरेन्द्रा कुमार (सं. 14620709एक्स अब जेसी-765764वाई),
01 जनवरी, 2011
- हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में
- हवलदार मालेप्पा तालेरी (सं. 14665257एम अब जेसी-765598डब्ल्यू), 03 जनवरी, 2011/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 14587183एन अब जेसी-765605एफ),
01 जनवरी, 2011
- हवलदार पी एस विजयन (सं. 14588450डब्ल्यू अब जेसी-765610एम), 01 जनवरी, 2011
- हवलदार राम दयाल जटव (सं. 14587196एल अब जेसी-765606के), 01 जनवरी, 2011
- हवलदार संतोश कुमार (सं. 14587686वाई अब जेसी-765603डब्ल्यू), 01 जनवरी, 2011
- हवलदार पी रमेश (सं. 14621068एच अब जेसी-765583एम),
01 जनवरी, 2011
- हवलदार श्री निवास सिंह (सं. 14587935एम अब जेसी-765589पी),
13 दिसम्बर, 2011/01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार देवेन्द्र कुमार वाजपेयी (सं. 14588698ए अब जेसी-765602एन), 27 दिसम्बर, 2011/01 दिसम्बर 2010*
- हवलदार परशुराम यादव (सं. 14589798एक्स अब जेसी-765607एम), 01 जनवरी, 2011
- हवलदार यदुवीर सिंह (सं. 14588682पी अब जेसी-765601एल),
27 दिसम्बर, 2011/01 दिसम्बर 2010*
- हवलदार राम नरेश (सं. 14587689एम अब जेसी-765604वाई),
01 जनवरी, 2011
- हवलदार अशोक कुमार मोहापात्रा (सं. 14588475एच अब जेसी-765611पी), 08 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*
- हवलदार एम एम वर्कर्टलि (सं. 14587576एफ अब जेसी-765608पी), 01 जनवरी, 2011
- हवलदार से नायब सूबेदार (मास्टर टेक गन) के रैंक में
- हवलदार रामेश्वर दास (सं. 14601105के अब जेसी-765493के),
01 दिसम्बर, 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में
- हवलदार वी सुरेश कुमार (सं. 14618140एच अब जेसी-764733एम),
12 जनवरी, 2011/01 अप्रैल, 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में हवलदार पुरान मसी राम (सं. 14578054एम अब जेसी-765713एल), 01 जनवरी, 2011	हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में हवलदार सुरेन्द्रा सिंह (सं. 14583125एम अब जेसी-765842एल), 01 मार्च 2011
हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में हवलदार एल नीला कुमार सिंधा (सं. 14578715एफ अब जेसी-765714एन), 27 दिसम्बर, 2010/01 नवम्बर, 2010*	हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में हवलदार स्वामीनाथ यादव (सं. 14592954एफ अब जेसी-765752के), 01 मार्च 2011
हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में हवलदार रघुवीर साहै (सं. 14600740एच अब जेसी-765652वाई), 15 दिसम्बर, 2010/01 दिसम्बर, 2010*	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में हवलदार बलवंत राम (सं. 14619117एफ अब जेसी-765094एच), 04 मार्च 2011/01 जुलाई 2010*
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में हवलदार विक्रम सिंह कर्की (सं. 14621645एच अब जेसी-765186डब्ल्यू), 13 जनवरी, 2011/01 जनवरी, 2010*	हवलदार फाफले नवनाथ दात्तु (सं. 14622318एल अब जेसी-765789एल), 01 फरवरी 2011
हवलदार से नायब सूबेदार ए बी एन टेक इलैक्ट के रैंक में हवलदार लंकेश्वर राय (सं. 14608737एक्स अब जेसी-765526एम), 01 जनवरी, 2011	हवलदार इंगले विश्वाश जी (सं. 14621884वाई अब जेसी-765698एफ), 20 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में हवलदार रमेश कुमार (सं. 14616191एक्स अब जेसी-765811एल), 01 मार्च 2011
हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में हवलदार सत्यवर्त (सं. 14580586एल अब जेसी-765857एन), 01 मार्च 2011	हवलदार हरि पदा दास (सं. 14625369के अब जेसी-765472डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*
हवलदार सुनील कुमार (सं. 14580764एच अब जेसी-765858डब्ल्यू), 01 मार्च 2011	हवलदार मोहद अरिफ अली (सं. 14605660पी अब जेसी-765776एन), 06 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011*
हवलदार से नायब सूबेदार पैटर और डेकोरेटर के रैंक में हवलदार सीता राम सिंह (सं. 14613378वाई अब जेसी-765865एम), 01 मार्च 2011	हवलदार संदीप कुमार शर्मा (सं. 14615936एन अब जेसी-765809एन), 01 मार्च 2011
हवलदार सुभाष चंद (सं. 14613302वाई अब जेसी-765863एफ), 01 मार्च 2011	हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में हवलदार के ससि (सं. 14597575पी अब जेसी-765639पी), 13 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में हवलदार पी मधु (सं. 14621444एल अब जेसी-765854ए), 17 फरवरी 2011/01 नवम्बर 2010*	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में हवलदार निरंजन कुमार यादव (सं. 14616455एन अब जेसी-765136पी), 01 अगस्त 2010
हवलदार मिथलेश कुमार (सं. 14619058ए अब जेसी-765042एम), 04 मार्च 2011/12 जुलाई 2010*	हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलाजी के रैंक में हवलदार नंद किशोर (सं. 14591749एन अब जेसी-765756ए), 01 मार्च 2011
हवलदार अजय प्रसाद (सं. 14618727एफ अब जेसी-765781वाई), 01 जनवरी 2011	*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)
हवलदार से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में हवलदार सुखेंदु चंद्रा पाल (सं. 14580091वाई अब जेसी-765833के), 12 फरवरी 2011	हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी)
हवलदार पदुम कुमार गोगल (सं. 14578928पी अब जेसी-765739ए), 01 फरवरी 2011	हवलदार शम्भु नाथ सिंह (सं. 14587743पी अब जेसी-765593एक्स), 18 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
4—124 GI/2011	हवलदार बली राम शर्मा (सं. 14585572पी अब जेसी-765596एल), 21 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*
	हवलदार प्रदीप कुमार पी बी (सं. 14586495एक्स अब जेसी-765585वाई), 04 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार तेग राम (सं. 14588037ए अब जेसी-765590के),
04 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार जय प्रकाश सिंह (सं. 14586871ए अब जेसी-765600एच),
04 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार सुनील कुमार मस्ती (सं. 14587865वाई अब जेसी-765588एम), 06 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार कलर्क (एसडी) के रैंक में

हवलदार भीसम प्रसाद (सं. 14590805पी अब जेसी-765398ए),
08 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

हवलदार मदन मोहन सिंह (सं. 14593514ए अब जेसी-765630ए),
01 फरवरी 2011

हवलदार राम किशोर सिंह (सं. 14591279एन अब जेसी-765402एक्स), 04 जनवरी 2011/01 अक्टूबर 2010*

हवलदार मान सिंह रावत (सं. 14592689डब्ल्यू अब जेसी-765619एफ), 01 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

हवलदार दलीप कुमार (सं. 14618172एल अब जेसी-765528एक्स),
26 नवम्बर 2010/03 अक्टूबर 2010*

हवलदार कमल सिंह (सं. 14626799ए अब जेसी-765541एफ),
04 जनवरी 2011/01 नवम्बर 2010*

हवलदार पापेन्द्रा सिंह (सं. 14627315एफ अब जेसी-765779एफ),
10 जनवरी 2011/03 अक्टूबर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

हवलदार शाजी के (सं. 14625443ए अब जेसी-765487वाई),
04 जनवरी 2011/01 नवम्बर 2010*

हवलदार जीतेन्द्रा कुमार चंदेला (सं. 14625350एल अब जेसी-765488एफ), 01 नवम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एवीएन (ई) के रैंक में

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14622629वाई अब जेसी-765477पी),
10 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रेडार के रैंक में

हवलदार टीकम सिंह (सं. 14624891ए अब जेसी-764735एक्स),
13 जनवरी 2011/01 अप्रैल 2010*

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 14619409के अब जेसी-764734पी), 11 जनवरी 2011/01 अप्रैल 2010*

हवलदार सवलिया शेलेश कुमार डी (सं. 14628657एफ अब जेसी-765780डब्ल्यू), 06 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रेडार के रैंक में

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14580478एफ अब जेसी-765716वाई),
01 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में
हवलदार रमेश राय (सं. 14614022एक्स अब जेसी-765814वाई),
14 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011*

हवलदार विभूति भूषण पाधीयरी (सं. 14613893एल अब जेसी-765562एक्स), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार प्रबीर मंडल (सं. 14613929वाई अब जेसी-765559एक्स),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार बिजया कुमार प्रधान (सं. 14613895डब्ल्यू अब जेसी-765556के), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

हवलदार सोदान सिंह (सं. 14583297एफ अब जेसी-765720एफ),
03 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार सुरेन्द्रा सिंह (सं. 14584082पी अब जेसी-765634डब्ल्यू),
18 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार सुनीत सिंह (सं. 14583826एच अब जेसी-765633एन),
11 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार पुर्णावासी राम (सं. 14584904एफ अब जेसी-765724एक्स), 08 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार चंद्रा मोहन (सं. 14584084ए अब जेसी-765635वाई),
15 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

हवलदार सुदेश धार (सं. 14615071एम अब जेसी-765215वाई),
20 जनवरी 2011/01 सितम्बर 2010*

हवलदार ब्रिज पाल (सं. 14621226एम अब जेसी-765768पी),
06 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार जावेद इफतेखेर (सं. 14620681एच अब जेसी-765762एन),
11 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार राम विनय सिंह (सं. 14621334डब्ल्यू अब जेसी-765771पी),
13 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार राजेन्द्रा प्रसाद (सं. 14620727ए अब जेसी-765766एफ),
05 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार ललात किशोर बलीआर सिंह (सं. 14620683एन अब जेसी-765763डब्ल्यू), 22 जनवरी 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार मानरंजन साहू (सं. 14620710एम अब जेसी-765765एफ),
05 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार त्रीनाथ मोहंता (सं. 14621477डब्ल्यू अब जेसी-765774एच),
12 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार मनवास यादव (सं. 14621259एक्स अब जेसी-765770एम),
06 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
हवलदार एस महेश (सं. 14620795एन अब जेसी-765667एफ),
01 जनवरी 2010

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14620968ए अब जेसी-765678एन),
17 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार राजेश कुमार यादव (सं. 14620985ए अब जेसी-765672एम), 18 जनवरी 2011/01 जनवरी 2010*

हवलदार विनय कुमार सिंह (सं. 14620730ए अब जेसी-765680एल),
26 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार जीतेन्द्र कुमार (सं. 14621014एफ अब जेसी-765676एच),
01 नवम्बर 2010

हवलदार शालेंद्रा सिंह तोमर (सं. 14622098एम अब जेसी-765761एल), 05 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 14576911एच अब जेसी-765712एच),
01 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

हवलदार वकील प्रसाद सिंह (सं. 14577632के अब जेसी-765735के),
01 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार सुफोर्ट स्टपक के रैंक में

हवलदार पुस्कर सिंह (सं. 14585817ए अब जेसी-765732डब्ल्यू),
01 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार आर्मेन्ट टेक (ए एफ वी/ए डी) के रैंक में

हवलदार रामयान प्रसाद पटेल (सं. 1458380ए अब जेसी-765747वाई),
17 जनवरी 2011/15 जनवरी 2010 *

हवलदार अमर सिंह (सं. 14579778डब्ल्यू अब जेसी-765745एन),
18 जनवरी 2011/15 जनवरी 2010 *

हवलदार रंजित सिंह (सं. 14579358डब्ल्यू अब जेसी-765744एल),
15 जनवरी 2011

हवलदार आतुल साक्या (सं. 14578894एम अब जेसी-765743एच),
15 जनवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

हवलदार रबी शंकर प्रसाद (सं. 14599445एल अब जेसी-765649वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार मनीन्द्रा चंद्रा बरमन (सं. 14600430एक्स अब जेसी-765651डब्ल्यू), 19 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 *

हवलदार पाटिल अम्बाजी कृष्णा (सं. 14601564एच अब जेसी-765707एक्स), 01 जनवरी 2011

हवलदार आसतमन टी (सं. 14601511के अब जेसी-765709एच),
01 जनवरी 2011

हवलदार रमेशन पी वी (सं. 14601287एच अब जेसी-765704के),
01 जनवरी 2011

हवलदार उमानंदा सिंह (सं. 14601940एल अब जेसी-765710एक्स),
01 जनवरी 2011

हवलदार दसरथ सिंह चौहान (सं. 14601394के अब जेसी-765706पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार धर्मा पाल सिंह (सं. 14598210एम अब जेसी-765711ए),
01 जनवरी 2011

हवलदार रवी करन (सं. 14601291एल अब जेसी-765705एम),
01 जनवरी 2011

हवलदार मलाय कंति सर्खेल (सं. 14600825वाई अब जेसी-765650एन), 04 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हवलदार राजेन्द्रा सिंह (सं. 14588106एल अब जेसी-765748एफ),
01 जनवरी 2011

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 282, दिनांक 24 मई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 30.12.2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

सामुअल लालरिन्तूलूअना (एमएस-15425डब्ल्यू) (एमआर-09102एक्स),
एमसी, 13 अक्टूबर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

रनजीता अगोमचनु (एमएस-15438एन) (एमआर-09070ए),
एमसी, 22 जनवरी 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 जुलाई 2007 से हो जाएगी
इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी
शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं
मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मुकुल गुप्ता (एमएस-15430एफ) (एमआर-09098ए), एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

थोंगम सचिन सिंह (एमएस-15636वाई) (एमआर-09097एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सी मालस्वमकीमा (एमएस-15424एन) (एमआर-09096पी), एएमसी, 13 अक्टूबर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कोतोर कोयू (एमएस-15340ए) (एमआर-09094के), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कमल कुमार (एमएस-15119एफ) (एमआर-09092वाई), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 जून 2005 से हो जाएगी

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मोनेन्द्र सिंह आर्या (एमएस-15595ए) (एमआर-09090एन), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सोनवणे श्रीकांत अशोकराव (एमएस-15215डब्ल्यू) (एमआर-09088डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

वरुण कुमार गुप्ता (एमएस-15401एम) (एमआर-09087एन), एएमसी, 20 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 जुलाई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

राजीव रंजन कुमार (एमएस-15632एच) (एमआर-09083एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 06 मार्च 2007 से हो जाएगी

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अमन दीप राज (एमएस-15558एम) (एमआर-09080के), एएमसी, 17 जुलाई 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 17 जनवरी 2007 से हो जाएगी

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

पंड्या कपिल हरेशकुमार (एमएस-15191एक्स) (एमआर-09066एक्स), एएमसी, 20 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

नीतू लाल (एमएस-15618डब्ल्यू) (एमआर-09067ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 06 सितम्बर 2004 से हो जाएगी

इसमें शल्य चिकित्सा के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लैमिट के पद पर

पुनीत दीवान (एमएस-14943के) (एमआर-09069एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

संतोष कुमार सिंह (एमएस-15285पी) (एमआर-09082पी), एएमसी,
13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

हिमांशु शर्मा (एमएस-15273ए) (एमआर-09086एल), एएमसी,
13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
ब्रिगेटर
उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

स्थल सेना शाखा

सं. 283, दिनांक 25 मई 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 सितम्बर 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

- (आईसी-34076) कर्नल (टीएस) मुकुल दोभल, आईएनएफ
- (आईसी-34339) कर्नल (टीएस) अरुण कुमार, मैक आईएनएफ
- (आईसी-34351) कर्नल सतीन्द्र सिंह बाजवा, आईएनएफ
- (आईसी-34518) कर्नल विजय रामकांत गाडेकर, आर्टी
- (आईसी-34576) कर्नल (टीएस) विजय बाली, आर्टी
- (आईसी-34599) कर्नल (टीएस) सत्पाल सिंह कोहली, आईएनएफ
- (आईसी-34766) कर्नल नेहयुमविटिल मुरलीधर, आईएनएफ
- (आईसी-34776) कर्नल संजीव कुमार बक्सरी, आईएनएफ
- (आईसी-34840) कर्नल (टीएस) राजीव कुमार बोहरा, एएससी
- (आईसी-34953) कर्नल (टीएस) सजुखा रेंगमा, आईएनएफ
- (आईसी-35042) कर्नल (टीएस) नलीन किशोर, इंजी
- (आईसी-35339) कर्नल (टीएस) गजानन प्रभाकर काले, आईएनएफ
- (आईसी-35485) कर्नल राजीव तलवार, एसी
- (आईसी-35696) कर्नल (टीएस) हेमंत कृष्णा, आईएनएफ
- (आईसी-35711) कर्नल (टीएस) नवीन खुल्लर, एसी

- (आईसी-35735) कर्नल (टीएस) इन्द्रजीत सिंह मथारू, आर्टी
- (आईसी-35776) कर्नल (टीएस) हरीश कुमार वैध, आईएनएफ
- (आईसी-35777) कर्नल (टीएस) आशुतोष मुखर्जी, आर्टी
- (आईसी-37125) कर्नल (टीएस) राजेश्वर शर्मा, आईएनएफ
- (आईसी-37179) कर्नल विजय कुमार छिब्बर, आईएनएफ
- (आईसी-37232) कर्नल योगेन्द्र कुमार माथुर, आर्टी
- (आईसी-37272) कर्नल (टीएस) एंटो चाको, आर्टी
- (आईसी-37420) कर्नल विजय कुमार यादव, आईएनएफ
- (आईसी-37465) कर्नल (टीएस) सुमेर सिंह, मैक आईएनएफ
- (आईसी-37507) कर्नल (टीएस) तरुण कुमार भांवरा, एसी
- (आईसी-37657) कर्नल (टीएस) सैयद सबीर मेहदी, एएडी
- (आईसी-37860) कर्नल (टीएस) बीरेन्द्र कुमार वसित्या, ईएमई
- (आईसी-38129) कर्नल (टीएस) श्रीनाथ सत्यन, आईएनएफ
- (आईसी-38199) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार शर्मा, ईएमई
- (आईसी-38242) कर्नल (टीएस) शैलेन्द्र कुमार, सिग्नल्स
- (आईसी-38623) कर्नल अजीत सिंह राठौर, एमएफ
- (आईसी-40866) कर्नल सुशील कुमार चांद, एओसी
- (आईसी-41060) कर्नल (टीएस) जी. जी. मैथ्यूज, सिग्नल्स
- (आईसी-41460) कर्नल (टीएस) राम नरेश प्रसाद सिंह, ईएमई
- (आईसी-41674) कर्नल (टीएस) गुरमीत सिंह गिल, आर्टी
- (आईसी-41922) कर्नल (टीएस) अर्जुन सिंह, आर्टी
- (आईसी-41981) कर्नल (टीएस) फणी भूषण चौधरी, आर्टी
- (एसएल-3407) ले कर्नल जसवंत सिंह, ईएमई
- (एसएल-3482) ले कर्नल कुलदीप सिंह, सिग्नल्स
- (एसएल-3885) ले कर्नल इआपचन के बी, ब्यूएम
- (एसएल-3969) ले कर्नल बालकृष्ण पंडित, आरओ
- (एसएल-4016) ले कर्नल रण बहादुर राणा, ब्यूएम
- (एसएल-4036) ले कर्नल नवरत्न सिंह, आरओ
- (एसएल-4076) ले कर्नल आनंद कुमार पान्डेय, आरओ

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अक्टूबर 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

- (आईसी-34113) कर्नल (टीएस) महेन्द्र बहादुर सक्सेना, आईएनएफ
- (आईसी-34790) कर्नल सुरेश बालकृष्ण घोरपाडे, आईएनएफ

- (आईसी-34848) कर्नल (टीएस) मदन माहेन दुड़ु, आईएनएफ
 (आईसी-34858) कर्नल रवीन्द्र कुमार सभवाल, आर्टी
 (आईसी-34933) कर्नल संजय गोपाल पुराणिक, आर्टी
 (आईसी-35169) कर्नल कुलदीप चंद डोगरा, आईएनएफ
 (आईसी-35297) कर्नल जोथ सिंह रावत, आईएनएफ
 (आईसी-35301) कर्नल चरणजीत सिंह मलिक, एसी
 (आईसी-35278) कर्नल (टीएस) संजीव दिनकर रेडार, आईएनएफ
 (आईसी-35495) कर्नल (टीएस) नीरज मेहरा, आईएनएफ
 (आईसी-35680) कर्नल बलदेव सिंह, आईएनएफ
 (आईसी-35683) कर्नल (टीएस) बलजीत सिंह, आईएनएफ
 (आईसी-35689) कर्नल (टीएस) राजीव कपूर, आर्टी
 (आईसी-35739) कर्नल (टीएस) सुदर्शन सिंह, आईएनएफ
 (आईसी-35780) कर्नल (टीएस) विजय कुमार, आईएनएफ
 (आईसी-35891) कर्नल (टीएस) विजय शंकरराव कालंगे, ईईसी
 (आईसी-37070) कर्नल (टीएस) राकेश कुमार शाह, आईएनएफ
 (आईसी-37193) कर्नल सुरेश अधिकारी, आईएनएफ
 (आईसी-37227) कर्नल (टीएस) सुधीर चावला, आईएनएफ
 (आईसी-37379) कर्नल रघुनंदन सिंह राघव, आईएनएफ
 (आईसी-37484) कर्नल (टीएस) हेमंत प्रभाकर केंडे, आर्टी
 (आईसी-37703) कर्नल (टीएस) राजेन्द्र डी, एएडी
 (आईसी-37708) कर्नल (टीएस) परमजीत सिंह, आईएनएफ
 (आईसी-38168) कर्नल (टीएस) जगजीत सिंह संधु, आईएनएफ
 (आईसी-38254) कर्नल (टीएस) शेखर मेहरा, इंजी
 (आईसी-38384) कर्नल (टीएस) जसविंदर सिंह, आर्टी
 (आईसी-38498) कर्नल (टीएस) सुनील सोनी, आईएनएफ
 (आईसी-39029) कर्नल (टीएस) रूपेन्द्र कुमार सिंधाई, ईएमई
 (आईसी-39039) कर्नल (टीएस) जोसेफ मैथ्यू, ईईसी
 (आईसी-39198) कर्नल (टीएस) संजीव सिंह याणा, एसी
 (आईसी-39423) कर्नल (टीएस) रोहतास सिंह, ईईसी
 (आईसी-40391) कर्नल (टीएस) जगदेव सिंह खैरा, आर्टी
 (आईसी-41713) कर्नल (टीएस) संदेव सिंह साम्याल, आईएनएफ
 (आईसी-41831) कर्नल (टीएस) केसीराजू नागा वीरवेंकट विजयकुमार,
 इंजी
- (आईसी-42066) कर्नल (टीएस) दिनेश चन्द्र शर्मा, आईएनटी
 (एसएल-3410) ले कर्नल अब्राहम पीजी, ईएमई
 (एसएल-3671) ले कर्नल पूर्ण सिंह, क्यूएम
 (एसएल-3685) ले कर्नल बाजपेयी डीएस, ईएमई
 (एसएल-3719) ले कर्नल कर्ण प्रकाश राय, क्यूएम
 (एसएल-3733) ले कर्नल टी मुरलीधरन, ईएमई
 (एसएल-3904) ले कर्नल मोहन आरंगम जी, आर्टी
 (एसएल-3968) ले कर्नल रविन्द्रन सी टी, सिग्नल्स
- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 नवम्बर 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—
- नियमित सेना
- स्थायी कमीशन
- (आईसी-34101) कर्नल दिनेश शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-34446) कर्नल चन्द्रपाल आस्वाल, आर्टी
 (आईसी-34473) कर्नल (टीएस) भूषण दिनार कल्याणी, आईएनएफ
 (आईसी-34479) कर्नल निलेश कुंअर, आईएनएफ
 (आईसी-34571) कर्नल आयला सविता कुमारास्वामी, आईएनएफ
 (आईसी-35283) कर्नल (टीएस) रणदीप साहु, आईएनटी
 (आईसी-35303) कर्नल अखिल साह, आईएनएफ
 (आईसी-35304) कर्नल राजीव कुमार जोशी, इंजी
 (आईसी-35467) कर्नल विजय, सिग्नल्स
 (आईसी-35508) कर्नल (टीएस) रमेश कुमार जखर, आईएनएफ
 (आईसी-35551) कर्नल (टीएस) प्रदीप भुटानी, इंजी
 (आईसी-35699) कर्नल (टीएस) मनोवेन्द्र रौय, आईएनएफ
 (आईसी-37198) कर्नल (टीएस) मनोज कुमार पट्टेडे, सिग्नल्स
 (आईसी-37632) कर्नल डेविडसन कोलाठ, आईएनएफ
 (आईसी-37713) कर्नल (टीएस) विजय कुमार पिल्लई, आईएनएफ
 (आईसी-37757) कर्नल (टीएस) अभिलाष चंदर आचार्य, आईएनएफ
 (आईसी-38171) कर्नल (टीएस) हरि कुमार टी, एएडी
 (आईसी-38293) कर्नल ओंकार सिंह यादव, आईएनएफ
 (आईसी-38421) कर्नल (टीएस) करमवीर सिंह गहलात, आर्टी
 (आईसी-38444) कर्नल (टीएस) मिलिन्द गंगाधर शिरोडकर, आईएनएफ

(आईसी-38519) कर्नल (टीएस) मधुमाला सत्यानंद राव, आईएनएफ
 (आईसी-38546) कर्नल (टीएस) अनिल कुमार लाल, आईएनएफ
 (आईसी-38578) कर्नल (टीएस) अशोक कुमार माथुर, आईएनएफ
 (आईसी-38588) कर्नल सुधीर चन्द्र मिश्रा, एओसी
 (आईसी-39928) कर्नल (टीएस) विजय कुमारन पिल्लई के, आर्टी
 (आईसी-40263) कर्नल थनकंचन के जे, सिंगल्स
 (आईसी-40483) कर्नल (टीएस) राधाकृष्णन नायर पी, आर्टी
 (आईसी-41642) कर्नल रविन्द्रन, आईएनटी
 (आईसी-41671) कर्नल (टीएस) थॉमस टी के, आर्टी
 (आईसी-41718) ले कर्नल चन्द्रभानु के सी, एसी
 (आईसी-41719) कर्नल (टीएस) स्करिया फिलिप, एसी
 (आईसी-41972) कर्नल मोहिंदर सिंह, एससी
 (आईसी-42116) ले कर्नल कुरियाकोसे ए के, आईएनएफ
 (एसएल-2996) कर्नल (टीएस) विजय कुमार पट्याल, एपीटीसी
 (एसएल-3164) ले कर्नल जगदीश प्रसाद यादव, आरओ
 (एसएल-3352) ले कर्नल लखवीर सिंह, आरओ
 (एसएल-3628) ले कर्नल राज शमशेर राय, क्यूएम
 (एसएल-3645) ले कर्नल जोगिन्द्र सिंह, एपीटीसी
 (एसएल-3660) ले कर्नल जयशंकर प्रसाद भगत, आरओ
 (एसएल-3804) ले कर्नल शशिधरन एन के, ईएमई
 (एसएल-3814) ले कर्नल भवन कुमार, ईएमई
 (एसएल-3858) ले कर्नल यदुवीर सिंह रावत, क्यूएम
 (एसएल-3946) ले कर्नल सोमन पिल्लई पी, ईएमई

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से
 उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति
 प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-34054) कर्नल (टीएस) अरिन्दम डे, मैक आईएनएफ
 (आईसी-34343) कर्नल (टीएस) विजय सिंह चाहर, आईएनएफ
 (आईसी-34465) कर्नल (टीएस) सुखवीर सिंह केडियन, आईएनएफ
 (आईसी-34597) कर्नल ऋषिकेश मोइत्रा, आईएनएफ
 (आईसी-34802) ले कर्नल सुशील कुमार ग्रोवर, आर्टी
 (आईसी-34843) कर्नल विक्रम तनेजा, एसी
 (आईसी-34935) कर्नल (टीएस) सोलंकी जी एम, आर्टी

(आईसी-34987) कर्नल (टीएस) अदापका नारायण, इंजी
 (आईसी-34999) कर्नल (टीएस) ओमप्रकाश बत्रा, एओसी
 (आईसी-35165) कर्नल (टीएस) भरत सिंह विष्ट, एएडी
 (आईसी-35614) कर्नल (टीएस) चंद्र प्रकाश रामचंद्रानी, इंजी
 (आईसी-35743) कर्नल सुनील कपूर, एसी
 (आईसी-37055) कर्नल रविन्द्र नाथ घोष दस्तीदार, मैक आईएनएफ
 (आईसी-37203) कर्नल (टीएस) विजय कुमार शर्मा, आईएनएफ
 (आईसी-37259) कर्नल (टीएस) संदीप कुमार, इंजी
 (आईसी-37488) कर्नल (टीएस) कौमी दीप सिंह रैत, एओसी
 (आईसी-37519) कर्नल (टीएस) तेजिंदर पाल सिंह कान्डा, आर्टी
 (आईसी-37630) कर्नल सूरज प्रकाश यादव, एएडी
 (आईसी-37651) कर्नल (टीएस) भरत भूषण शर्मा, आर्टी
 (आईसी-37695) कर्नल (टीएस) जितिन्द्र पाल सिंह, एसी
 (आईसी-37726) कर्नल (टीएस) सरबजीत सिंह, एओसी
 (आईसी-38018) कर्नल सुनील वेणुगोपाल, आईएनएफ
 (आईसी-38185) कर्नल (टीएस) सुशील कुमार बौठियाल, ईएमई
 (आईसी-38469) कर्नल (टीएस) भूपेश महाजन, आईएनएफ
 (आईसी-38552) कर्नल (टीएस) राजेश कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-39053) कर्नल (टीएस) भीष्मादर भट्टाचार्या, ईएमई
 (आईसी-39353) कर्नल (टीएस) अत्तर सिंह अहलावत, एओसी
 (आईसी-40733) कर्नल (टीएस) जोसेफ जॉर्ज, आर्टी
 (आईसी-41029) कर्नल (टीएस) माधव श्याम सिंह, आईएनटी
 (आईसी-41216) कर्नल (टीएस) कुंदन सिंह नेगी, आईएनएफ
 (आईसी-41373) कर्नल (टीएस) विश्वेश्वर राउत, आईएनएफ
 (आईसी-41676) कर्नल अनुप थापा, आईएनएफ
 (आईसी-41819) कर्नल (टीएस) उपकार सिंह नेरवाल, ईएमई
 (आईसी-41965) कर्नल बहादुर सिंह कैरा, ईएमई
 (आईसी-42071) कर्नल (टीएस) एस रविन्द्रन पिल्लई, आईएनएफ
 (एसएल-3395) ले कर्नल सहेन्द्र पाल सिंह, सिंगल्स
 (एसएल-3396) ले कर्नल प्रभात सिंह, सिंगल्स
 (एसएल-3580) ले कर्नल भगवान सिंह, क्यूएम
 (एसएल-3672) ले कर्नल एंड्रयू नोएल, एईसी
 (वी-355) कर्नल मधुरेन्द्र कुमार, आरबीसी

सं. 284, दिनांक 25 मई 2011--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) तथा 19(1) के अनुसार इस कार्यालय की 07.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किए जाते हैं। आरंभ में मुख्य अधिसूचना दिनांक 14.06.2008 की अधिसूचना सं. 283 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए थे :--

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या, अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या, विषय-वस्तु

अलका जोशी, अ स (निर्माण) दूरभाष सं. 23016237, श्री राजेन्द्र कुमार, उ स (निर्माण) दूरभाष सं. 23014943, रक्षा (निर्माण) संबंधी मामले

वी राजाराम, अ स (जीएस-V) दूरभाष सं. 23015601, श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुंद्रा, निदेशक (जी) दूरभाष सं. 23011896, सैन्य संक्रियाएं तथा आसूचना, सीमा मामले/विवाद/घटनाएं/पड़ोसी देश

यू के नायर, अ स (जीएस-I) दूरभाष सं. 23012205, श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुंद्रा, निदेशक (जी) दूरभाष सं. 23011896, आंतरिक सुरक्षा मुद्रदे

रंजन कुमार झा, अ स (जीएस-I) दूरभाष सं. 23012205, श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुंद्रा, निदेशक (जी) दूरभाष सं. 23011896, राष्ट्रीय राईफल्स, सेना के स्थापना संबंधी मामले, मु एकीकृत रक्षा सेवा, संयुक्त राष्ट्र में सेना के अफसरों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति, शांति सेना मिशन

श्री गुरदीप सिंह, अ स (जीएस-V) दूरभाष सं. 23012501, श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुंद्रा, निदेशक (जी) दूरभाष सं. 23011896, सैन्य संक्रियाएं तथा आसूचना, सीमा मामले/विवाद/घटनाएं/पड़ोसी देश

श्री देवाशीष भारद्वाज, अ स (जीएस-V) दूरभाष सं. 23015601, श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुंद्रा, निदेशक (जी) दूरभाष सं. 23011896, सैन्य संक्रियाएं तथा आसूचना, सीमा मामले/विवाद/घटनाएं/पड़ोसी देश

जयराज, अ स/उ स (जीएस-III) दूरभाष सं. 23016131, श्री एस सी शर्मा, निदेशक (जीएस-III) दूरभाष सं. 23013789, प्रादेशिक सेना, मानवित्र प्रतिबंधन नीति, नीति तथा व्यक्तिगत मामलों में राज्य सरकार/सिविल प्राधिकारी/फिल्म कंपनियों को सैन्य सहयोग, सुरक्षा स्वीकृति, स्पैक्ट्रम

दिनांक 07 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना के क्र सं. 15 को हटाया जाए तथा निम्नलिखित जोड़ा जाए :--

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या, अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या, विषय-वस्तु

वाई एस अवाना, अ स (वायु-III) दूरभाष सं. 23010231/विस्तार 5389, श्रीमती अंजलि सिंह, निदेशक, (वायु-I) दूरभाष सं. 23016304, रक्षा (वायु-III)/डेस्क एवं अनुभाग से संबंधित कार्य

ए एस चौधरी, अ स (वायु-II) दूरभाष सं. 23013058, श्रीमती अंजलि सिंह, निदेशक, (वायु-I) दूरभाष सं. 23016304, रक्षा (वायु-III)/डेस्क एवं अनुभाग से संबंधित कार्य

दिनांक 07 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना में क्र सं. 26 के विषयगत मामले (अर्थात् श्री एन के कश्मीरा के सामने) ए एस सी, ई एम आर तथा इसी प्रकार के स्थापना/प्रशासनिक मामलों के स्थान पर ए ओ सी, ई एम ई के स्थापना/प्रशासनिक मामले पढ़ा जाए।

यदि अधिसूचना में उल्लिखित अफसरों में से किसी ने प्रभार छोड़ दिया है अथवा वह प्रशिक्षण या लम्बी छुट्टी पर है तो उसका लिंक अफसर अथवा वह अफसर जिसे प्रभार सौंपा गया हो, नियमित पदधारी के प्रभार लेने तक, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका निभाएगा।

ऐसे विषय जो उपर्युक्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी में कवर नहीं होते हैं वे इस विषय में पूर्व की अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेंगे।

के मुरली
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th June 2011

(ARMY BRANCH)

No. 275, dated 19th May 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Probation)

Prateek Verma (MR-09100M), AMC, 09 Sep 2010

Ajay Chauhan (MR-09101P), AMC, 09 Sep 2010

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS(HR)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 276, dated 19th May 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Subs Brig

IC No., Rank, Name, Arm, D.O. A/Brig & D.O. Subs Brig

(IC-38549) Col Dilawar Singh, Gren, 13 Mar 2009, 13 Mar with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37018) Col DS Sarao, Arty, 01 Aug 2008, 01 Aug 2008 with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-38675) Col AS Puri, Mahar, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-38725) Col KKN Thacker, Gren, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-38736) Col Krishan Kumar, AVSM, Madras, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39082) Col UPS Pathania, Mech Inf, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39122) Col AK Gupta, Maratha Li, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39147) Col Vinod Raizada, SM, Garh Rif, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39214) Col DS Tripathi, Arty, 05 Oct 2009, 05 Oct 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39225) Col Vinod Batra, AOC, 09 Sep 2009, 09 Sep 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39229) Col D Agnihotri, Mech Inf, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39260) Col JS Virk, SM, Sikh, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 01 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-38667) Col PN Chaudhari, Arty, 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-38673) Col Manjeet Mehta, SM, Jak Rif, 13 Feb 2009, 13 Feb 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37736) Col Lalitt Pande, VSM, Mech Inf, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37738) Col PK Sharma, JAG, 01 Jan 2009, 01 Jan 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37745) Col Arvind Thakur, Armd, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37751) Col KC Mahajan, AOC, 01 Dec 2009, 01 Dec 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37768) Col Dinkar Adeeb, JAG, 01 Jan 2009, 01 Jan 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37769) Col VG Ramakrishnan, Sigs, 01 Jan 2009, 01 Jan 2009, with seniority from 02 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37782) Col R Gupta, AAD, 01 Jan 2009, 01 Jan 2009, with seniority from 03 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37793) Col N Khanna, JAG, 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 03 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39434) Col MS Kohli, Armd, 01 Nov 2009, 01 Nov 2009, with seniority from 03 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39435) Col Sanjiv Bajaj, Engrs(GC), 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 03 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39436) Col SK Saini, YSM, VSM, Jat, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 04 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39437) Col ST Upasaini, SM, Jat, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 04 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39438) Col PC Thimmaya, Mech Inf, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 04 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39439) Col V George, Arty(GC), 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 04 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39441) Col Rajbir Singh, Para, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 05 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39443) Col MS Khara, Arty, 04 Feb 2009, 04 Feb 2009, with seniority from 05 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39445) Col SS Hasabnis, Engrs(GC), 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 05 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39450) Col Amritpal Singh, Armd, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 05 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39457) Col MS Ghura, Raj Rif, 13 Mar 2009, 13 Mar 2009, with seniority from 06 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39458) Col AP Dere, Armd, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 06 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39464) Col MH Thakur, ASC, 01 Feb 2008, 01 Feb 2008, with seniority from 06 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39465) Col AJS Bedi, Garh Rif, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 06 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39470) Col MM Gupta, YSM, Assam, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 07 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39472) Col JK Marwal, Gren, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 07 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39488) Col Arun Kumar, Engrs(GC), 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 07 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39491) Col AK Das, SC, Sikh, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 07 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39492) Col A Chauhan, 11 GR, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 08 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39500) Col CE Fernandes, SM, Bihar, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 08 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39501) Col AP Singh, AAD, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 08 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39506) Col SB Sajjan, Mahar, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 08 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39508) Col Rajat Jairath, AAD, 01 Mar 2009, 01 Mar 2009, with seniority from 09 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39510) Col Sudhir Lanba, SM, Arty, 01 Sep 2008, 01 Sep 2008, with seniority from 09 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39512) Col Neeraj Verma, Arty, 01 Nov 2008, 01 Nov 2008, with seniority from 09 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39521) Col YT Jain, Arty(GC), 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 09 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39522) Col JS Negi, VSM, Dogra, 21 Aug 2009, 21 Aug 2009, with seniority from 10 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39523) Col AK Raghava, Arty, 04 Feb 2009, 04 Feb 2009, with seniority from 10 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39545) Col JK Dang, Dogra, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 10 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39546) Col Harvijay Singh, Sigs, 01 Jan 2009, 01 Jan 2009, with seniority from 10 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39560) Col VS Verma, Mech Inf, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 11 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39565) Col Vinod Pant, Sigs, 01 Apr 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 11 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39569) Col PRS Chaudhary, Arty, 04 Feb 2009, 01 Mar 2009, with seniority from 11 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39577) Col Hariharan Ravi, Sigs, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 11 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39579) Col Rajiv Chopra, Arty, 04 Feb 2009, 07 Mar 2009, with seniority from 12 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39581) Col Balraj Singh, Engrs, 01 Oct 2008, 14 Mar 2009, with seniority from 12 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39583) Col JN Nayar, EME, 14 Aug 2009, 14 Aug 2009, with seniority from 12 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39590) Col H Thukral, Sikh Li, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 12 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39604) Col A Asthana, 11 GR, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 13 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39607) Col IS Ghuman, Guards, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 13 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39608) Col NK Bhatia, SM, Int, 01 Oct 2008, 17 March 2009, with seniority from 13 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39609) Col A Ohri, Kumaon, 21 Mar 2009, 21 Mar 2009, with seniority from 13 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39616) Col RK Gupta, AAD, 01 Mar 2009, 17 Mar 2009, with seniority from 14 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39617) Col PS Sanwal, Rajput, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 14 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39621) Col RK Bhardwaj, Arty(GC), 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 14 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39624) Col PM Bali, VSM, Punjab, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 14 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39636) Col SS Ruhil, Inf, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 15 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39646) Col N Sanal Kumar, Bihar, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 15 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39653) Col Deepak Arora, Arty, 01 Jun 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 15 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39669) Col HPS Pall, Mech Inf, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 15 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39673) Col JS Yadav, SM, Armd, 19 Apr 2009, 19 Apr 2009, with seniority from 16 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39675) Col Vijay Singh, SM, 9 GR, 09 Jun 2009, 09 Jun 2009, with seniority from 16 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39676) Col DVS Rana, VSM, Jak Li, 04 Jul 2009, 04 Jul 2009, with seniority from 16 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39682) Col SK Singh, Arty, 07 Aug 2009, 07 Aug 2009, with seniority from 16 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39700) Col A Hussain, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 17 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39739) Col R Srivastava, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 17 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39751) Col Harpal Singh, AC, 09 Jun 2009, 09 Jun 2009, with seniority from 17 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39780) Col KK Pant, Raj Rif, 09 Jun 2009, 09 Jun 2009, with seniority from 17 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-41437) Col RS Sharma, Engrs, 01 Oct 2008, 01 Apr 2009, with seniority from 18 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-41439) Col MS Wadhwa, EME, 20 Apr 2009, 20 Apr 2009, with seniority from 18 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-41444) Col AK Biswas, Engrs, 01 Oct 2008, 01 Apr 2009, with seniority from 18 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-41456) Col RK Anand, VSM, Sigs, 01 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 18 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37813) Col Vinod K Adappa, SM, Sikh, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37833) Col P Kumar, Garh Rif, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37840) Col R Gangele, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-37855) Col T Prashad, JAG, 01 Jan 2008, 01 Apr 2009, with seniority from 19 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39864) Col VD Dogra, AC, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 20 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39865) Col M Mathews, VSM, Engrs, 01 Nov 2008, 01 Apr 2009, with seniority from 20 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39868) Col S Srivastava, Arty(GC) 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 20 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39869) Col AK Ahuja, Mech Inf, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 20 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39870) Col SK Mathur, EME, 20 Apr 2009, 20 Apr 2009, with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39874) Col Taranjit Singh, AC, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39879) Col AK Dhar, SM*, Para, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39885) Col HK Kalra, Dogra, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 21 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39888) Col Ashwini Sharma, EME, 01 May 2009, 01 May 2009, with seniority from 22 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39898) Col DN Ahuja, Engrs, 03 Nov 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 22 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39909) Col PS Sandhu, Mech Inf, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 22 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39911) Col Anil Sofat, AAD, 01 Oct 2009, 01 Oct 2009, with seniority from 22 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39921) Col KS Shaji, M Li, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 23 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39929) Col Saranjeet Singh, Sikh Li, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 23 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39930) Col VPS Bhakuni, Dogra, 15 Jun 2009, 15 Jun 2009, with seniority from 23 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39943) Col A Wadhwa, VSM, Engrs, 03 Nov 2008, 01 Apr 2009, with seniority from 23 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39956) Col GS Sangha, SM, VSM, Gren, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 24 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39959) Col Kanwaljit Singh, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 24 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39966) Col VS Randhawa, EME, 19 Jun 2009, 19 Jun 2009, with seniority from 24 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39968) Col CK Ramesh, Maratha Li, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 24 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39970) Col Sandeep Apte, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 25 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39972) Col A Mathur, Jak Rif, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 25 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39977) Col NS Rao, Arty, 07 Aug 2009, 07 Aug 2009, with seniority from 25 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39988) Col MK Yadav, Garh Rif, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 25 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39992) Col Anoop Kumar V, Maratha Li, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 26 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39995) Col SS Mamak, Arty, 04 Feb 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 26 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-39996) Col R Sabherwal, Sigs, 01 Mar 2009, 01 Apr 2009, with seniority from 26 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40003) Col Sandeepan Handa, AAVN, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 27 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40007) Col YVK Mohan, SM, 11 GR, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 27 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40008) Col SB Singh, Arty, 20 Feb 2009, 05 Apr 2009, with seniority from 27 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40012) Col Amardeep Singh, ASC, 01 Feb 2008, 15 Apr 2009, with seniority from 27 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40022) Col AK Bhatt, 9 GR, 01 Nov 2009, 01 Nov 2009, with seniority from 28 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40028) Col SPS Kohli, Engrs, 01 Feb 2009, 01 May 2009, with seniority from 28 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40030) Col KS Selvan, 4 GR, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 28 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40031) Col S Kanal, Arty, 20 Feb 2009, 01 May 2009, with seniority from 28 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40033) Col S Sabharwal, Arty, 20 Feb 2009, 01 May 2009, with seniority from 29 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40060) Col GJ Singh, Arty, 20 Feb 2009, 01 May 2009, with seniority from 29 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40064) Col VC Chitre, VSM, Arty(GC) 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 29 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40078) Col Amardeep Singh Sidhu, VSM, AAVN, 01 Oct 2009, 01 Oct 2009, with seniority from 29 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40091) Col MD Singh, SM, Guards, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40094) Col M Singh, Arty(GC), 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40098) Col Dushyant Singh, Maratha Li, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40099) Col Girish Gogia, Madras, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 30 Jun 2008 without effect on pay and pension

(IC-40101) Col RK Jagga, Armd, 01 Dec 2009, 01 Dec 2009, with seniority from 01 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40106) Col Anil Sharma, Jat, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 01 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40133) Col SC Meston, VSM, Mahar, 01 Aug 2009, 01 Aug 2009, with seniority from 01 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40156) Col S Sharma, Sig, 01 Mar 2009, 25 May 2009, with seniority from 01 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40164) Col MLNS Kumar, Arty, 05 Jul 2009, 05 Jul 2009, with seniority from 02 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40167) Col DS Grewal, Kumaon, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 02 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40186) Col TK Sachdev, Arty, 07 Aug 2009, 07 Aug 2009, with seniority from 02 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40235) Col R Gopal, SM, 8 GR, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009, with seniority from 03 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40240) Col V Nangia, SM, Kumaon, 07 Aug 2009, 07 Aug 2009, with seniority from 03 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40248) Col V Puri, Arty, 07 Aug 2009, 07 Aug 2009, with seniority from 03 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-40257) Col SK Chabra, ASC, 01 Mar 2008, 01 Jun 2009, with seniority from 03 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-41814) Col Deepak Sharma, Engrs, 04 Feb 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 04 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-41817) Col RG Goswami, EME, 19 Jun 2009, 19 Jun 2009, with seniority from 04 Jul 2008 without effect on pay and pension

(IC-41839) Col R Chhibber, Sigs, 01 Apr 2009, 01 Jun 2009, with seniority from 04 Jul 2008 without effect on pay and pension

R B ASTHANA
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 277, dated 20th May 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY (PERMANENT COMMISSION)

To be Maj

Samuel Lalrintluanga (MS-15425W) (MR-09102X),
AMC, 13 Oct 2010

Ranjeeta Angomchanu (MS-15438N) (MR-09070A),
AMC, 22 Jul 2010

Kamal Kumar (MS-15119F) (MR-09092Y), AMC,
16 Jun 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sonavane Shrikant Ashokrao (MS-15215W) (MR-09088W), AMC, 20 Jan 2010

(MoD Notification published in Gazette of India dated 28 Aug 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Varun Kumar Gupta (MS-15401M) (MR-09087N), AMC,
20 Jan 2010

Neetu Lal (MS-15618W) (MR-09067A), AMC, 06 Sep 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Puneet Dewan (MS-14943K) (MR-09069L), AMC, 27 Dec 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Pandya Kapil Hareshkumar (MS-15191X)(MR-09066X), AMC, 20 Jan 2010

(MoD Notification published in Gazette of India dated 28 Aug 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Himanshu Sharma (MS-15273A)(MR-09086L), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Santosh Kumar Singh (MS-15285P)(MR-09082P), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Puneet Dewan (MS-14943K)(MR-09069L), AMC, 27 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dinesh Bhardwaj (MR-08876N), AMC, 11 Feb 2010

Brig YASH PANDE
Dy DG AFMS (HR)
Office of the DGAFMS

(ARMY BRANCH)

NO. 278, dated 20th May 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Subs Sub Maj (Dvr)

Sub Sunder Singh (JC-695154M), 16 Sep 2009

Sub Hari Prasad Bhattry (JC-695262W), 01 Nov 2010

Sub Rajender Singh (JC-695601L), 01 Jan 2011

Sub Uttam Singh (JC-695263Y), 01 Jan 2011

To be Sub Maj (Ambulance Asstt)

Sub Trilok Singh (JC-695164W), 01 Oct 2010

Sub Kalyan Kongari (JC-695165Y), 01 Oct 2010

Sub Pravat Sinha (JC-695166F), 01 Nov 2010

Sub Swaran Lal (JC-695153K), 01 Dec 2010

Sub Jitendra Singh (JC-695194N), 01 Dec 2010

To be Sub Sub (Dvr)

Nb Sub Deban Singh (JC-696052H), 01 Dec 2009

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-696053L), 01 Mar 2010

Nb Sub Deonarayan Mishra (JC-696054N), 23 Mar 2010

Nb Sub Sigamani M (JC-696055W), 23 Mar 2010

Nb Sub Ram Prasad (JC-696110F), 08 May 2010

Nb Sub Naresh Kumar (JC-696143M), 01 Oct 2010

Nb Sub Sunil Dutt Naithani (JC-696111K), 01 Nov 2010

Nb Sub Harendra Rai (JC-696177A), 01 Nov 2010

Nb Sub Madan Lal (JC-696144P), 01 Nov 2010

Nb Sub Rabindra Nath Kunwar (JC-696145X), 01 Dec 2010

Nb Sub Santosh Kumar (JC-696113P), 01 Jan 2011

Nb Sub Abadh Bihari Sharma (JC-696146A), 01 Jan 2011

To be Subs Nb Sub (AMB Asstt)

Hav Rajendra Kumar Singh (No. 13961872P now JC-697784L), 01 Oct 2010*

Hav Sushil Kumar Sharma (No. 13961895W now JC-697769W), 01 Oct 2010*

Hav Rajendra Yadava (No. 13961680X now JC-697770L), 01 Oct 2010*

Hav Ramesh Kumar (No. 13961996K now JC-697785N), 01 Oct 2010*

Hav Dharam Singh (No. 13961991L now JC-697786W), 01 Oct 2010*

Hav Ashok Kumar Rajak (No. 13962055H now JC-697771N), 01 Oct 2010*

Hav Vijender Singh (No. 13962130F now JC-697772W), 01 Oct 2010*

Hav Mahender Singh (No. 13962125W now JC-697773Y), 01 Oct 2010*

Hav Raj Kumar (No. 13962127F now JC-697814X), 01 Oct 2010*

Hav Kalsait Kamlakar Ram Bhau (No. 13962280X now JC-697815A), 01 Oct 2010*

Hav Brajesh Kumar (No. 13962317N now JC-697787Y),
01 Oct 2010*

Hav Kewal Singh Yadav (No. 13962328A now JC-
697774F), 01 Oct 2010*

Hav D Selvaraj (No. 13962385F now JC-697788F),
01 Oct 2010*

Hav Surendra Prasad Tiwari (No. 13962396N now JC-
697789K), 01 Oct 2010*

Hav J Mohana Raju (No. 13962416W now JC-697790Y),
01 Oct 2010*

Hav Ravi C (No. 13962413H now JC-697775K), 01 Oct
2010*

Hav Makhan Lal (No. 13962574L now JC-697791F),
01 Oct 2010*

Hav Ram Sajeevan (No. 13962575N now JC-697816H),
01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gauhane Ramesh Babu Rao (No. 13962507A now
JC-697817L), 01 Nov 2010*

Hav Radha Krishnan Chatha Nat (No. 13962557L now
JC-697792K), 01 Nov 2010*

Hav Lal Singh (No. 13962513N now JC-697776M),
01 Nov 2010*

Hav Hiteswar Bora (No. 13962625N now JC-697818N),
01 Nov 2010*

Hav Satyabir (No. 13962602M now JC-697906K),
01 Nov 2010*

Hav Mohan Ram (No. 13962696P now JC-697777P),
01 Nov 2010*

Hav Phool Chand Guzar (No. 13960533H now JC-
697793M), 01 Nov 2010*

Hav Karunakar Dalai (No. 13962474A now JC-
697794P), 01 Nov 2010*

Hav Shyam Kumar Sah (No. 13962695M now JC-
697819W), 01 Nov 2010*

Hav Jayanta Mazumder (No. 13962756Y now JC-
697933N), 01 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Shankar Prasad Yadav (No. 13962746P now
JC-697820L), 01 Dec 2010*

Hav Arvind Singh (No. 13961698N now JC-697821N),
01 Dec 2010*

Hav Shinde Jayakar Bhim Rao (No. 13962972M now
JC-697822W), 01 Dec 2010*

Hav Vishvanath Balaram Patil (No. 13962971K now JC-
697823Y), 01 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

KULWANT RANA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 279, dated 23rd May 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub

Nb Sub Kishore Singh (JC-803679H), 01 Dec 2010

Nb Sub Mahendra Singh (JC-803680X), 01 Dec 2010

Nb Sub Ramjiram Godara (JC-803682H), 01 Jan 2011

Nb Sub Surendra Prasad (JC-803683L), 01 Jan 2011

Nb Sub Rajpal Singh (JC-803685W), 01 Jan 2011

Nb Sub/Clk Samir Kumar Biswas (JC-803958N), 01 Jan
2011

Nb Sub Gopal Jee Singh (JC-803687F), 01 Feb 2011

Nb Sub Riyasat (JC-803691K), 01 Feb 2011

Nb Sub Sharawan Kumar (JC-803694X), 01 Feb 2011

Nb Sub Dinesh Baboo (JC-803700A), 01 Feb 2011

PREM PARKASH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 280, dated 23 May 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Ranvir Singh (No. 10181321F now JC-842848P),
25 Jan 2011*

Hav Shri Pal Singh (No. 10478721F now JC-842853A),
04 Feb 2011*

Hav Rajinder Singh (No. 3974251X now JC-842862F),
04 Jan 2011*

Hav Phurba Tshering Lama (No. 5241548Y now JC-
842863K), 22 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Trilok Singh (No. 4054326H now JC-842898A),
01 Feb 2011**

Hav Jog Raj (No. 9078932M now JC-842899H), 01 Feb
2011**

Hav Prabhakaran PP (No. 10289701K now JC-842907W),
09 Feb 2011**

Hav Satnam Singh (No. 14317103K now JC-842909F),
01 Feb 2011**

Hav Vijay Kumar (No. 10361323P now JC-842910W),
01 Feb 2011**

Hav Parshotam Singh (No. 10361162X now JC-
842911Y), 01 Feb 2011**

Hav Bhupender Singh (No. 13743071F now JC-
842912F), 01 Feb 2011**

Hav Dipak Gurung (No. 1262357Y now JC-842913K),
01 Feb 2011**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011
without effect on pay and allowances)

Hav Shayam Singh (No. 6463914X now JC-842918H),
01 Mar 2011***

Hav Inderjit Singh (No. 2472299N now JC-842920A),
01 Mar 2011***

Hav Mukhtiar Singh (No. 14337366K now JC-842921H),
01 Mar 2011***

Hav Bakhshish Singh (No. 3376768K now JC-842925Y),
01 Mar 2011***

Hav Dhurav Singh (No. 4060538K now JC-842928M),
01 Mar 2011***

Hav Mansha Ram (No. 2470326N now JC-842929P),
01 Mar 2011***

***(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk MD Bazlur Rahaman (No. 8022600A now JC-
842897X), 01 Feb 2011****

****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef
01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 281, dated 24 May 2011—The President is pleased
to make the following Appointment/Promotion:—

To be Sub Machinist

Santosh Kumar K (JC-761582N), 01 Jan 2011

To be Sub Master Tech A Veh

Badri Nath Gurung (JC-759606N), 02 Dec 2010/01 Dec
2010*

To be Sub Clk (SD)

Kshatriya Pratap Singh Shanke (JC-760771L), 04 Jan
2011/01 Jan 2011

Ajay Prakash Singh (JC-760831P), 01 Jan 2011

Gyan Chand Sharma (JC-760832X), 01 Jan 2011

Manager Chaudhary (JC-760769N), 01 Jan 2011

Suresh Kumar (JC-760906F), 01 Jan 2011

Shri Krishna Pandey (JC-760768L), 01 Jan 2011

Raj Kumar Singh (JC-760772N), 01 Jan 2011

Anil Kumar Singh Pal (JC-760587A), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Gun

Brij Kishore Singh (JC-759618H), 01 Jan 2011

Patil Hanamant Mahadeo (JC-759818Y), 01 Jan 2011

Om Chand (JC-759711K), 01 Jan 2011

Krishnan S (JC-759621H), 01 Jan 2011

Khub Karan Gangwar (JC-759626F), 01 Jan 2011

To be Sub Tech (SA)

Amal Chandra Sarkar (JC-761797M), 01 Jan 2011

Vakil Singh Kushwaha (JC-762455L), 01 Jan 2011

Om Prakash Rai (JC-761388Y), 01 Jan 2011

Braham Pal Singh (JC-761386N), 01 Jan 2011

Shelar Shivaji Sampat (JC-761467N), 01 Jan 2011

To be Sub Auto Tech B Veh

Arvind Kumar (JC-763962L), 01 Jan 2011

Ram Ayodhya Prasad(JC-763959L), 04 Jan 2011/01 Jan
2011*

To be Sub Master Tech Comm .

Ramesh Kumar Dogra (JC-759639Y), 01 Jan 2011

To be Sub Armt (AFV AD)

Vijay Kumar (JC-759624W), 01 Jan 2011

To be Sub Master Tech RDR

Kallappa Gurav (JC-759685N), 01 Dec 2010

To be Sub Tech Radio

Chandan Kumar Sandha (JC-759634A), 01 Jan 2011

To be Sub Armt Tech (FD)

M Subramani (JC-759620A), 01 Jan 2011

- To be Sub Master Tech Elect
Ram Mohan (JC-759643F), 01 Jan 2011
Shyam Kishore Srivastava (JC-759645M), 01 Jan 2011
- To be Sub SKT
Sada Ram (JC-763248L), 27 Dec 2010/01 Dec 2010*
- To be Sub Master Tech B Veh
Babul Chandra Nath (JC-759616X), 31 Dec 2010/01 Dec 2010*
- Prit Pal Singh (JC-759628M), 01 Jan 2011
- To be Sub Tech RDR
Manoj Kumar Dubey (JC-760343M), 01 Jan 2011
Dilip Kumar Verma (JC-759687Y), 01 Dec 2010
- To be Sub Tech Comm
Babu Lal Mundel (JC-763882N), 01 Jan 2011
- To be Sub Auto Tech Engr Eqpt
Ashok Kumar Singh (JC-759641W), 01 Jan 2011
- To be Sub Master Tech SA
S Kadar Karai (JC-761385L), 01 Jan 2011
- To be Sub Master Tech AVN (AE)
Kuldeep Singh (JC-760951N), 05 Nov 2010/01 Nov 2010*
- To be Sub Master Tech A Veh
Anand Singh Rawat (JC-759607W), 01 Dec 2010
- To be Sub DW
Ram Kishan (JC-762493F), 01 Dec 2010
- *(Gtd ante dated seniority)**
- Hav to be Nb Sub Support Staff (ER)
Ramnarayan Sah (No. 14581832X now JC-765418H), 16 Oct 2010/01 Sep 2010*
- Hav to be Nb Sub SKT
Nrusingha Charan Sahoo (No. 14613679H now JC-765312W), 01 Nov 2010
- Kishan Lal Jat (No. 14613559K now JC-765315K), 01 Nov 2010
- Asit Kumar Santra (No. 14613920K now JC-765553W), 23 Nov 2010/01 Nov 2010*
- Hav to be Nb Sub Tech SA
Kamal Kumar (No. 14598340P now JC-765513P), 15 Nov 2010/01 Nov 2010*
- Jiju Mathew (No. 14597701W now JC-765510F), 21 Nov 2010/17 Oct 2010*
- Niranjan Paul (No. 14596397L now JC-765507F), 18 Nov 2010/17 Oct 2010*
- Pramod Kumar Singh (No. 14594838X now JC-765454N), 01 Nov 2010
- Jagadish Hazarika (No. 14597556K now JC-765517L), 01 Nov 2010
- Hav to be Nb Sub DW
Dalbir Singh (No. 14585985Y now JC-765431M), 01 Nov 2010
- Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)
Rampal Singh (No. 14583622W now JC-765244N), 17 Nov 2010/01 Oct 2010*
- Hav to be Nb Sub Master Tech Comm
Lakhpur Singh (No. 14623789L now JC-765533H), 22 Nov 2010/03 Oct 2010*
- Kuldeep Singh (No. 14627345Y now JC-765543M), 01 Dec 2010
- Hav to be Nb Sub Limb Maker
Kedar Prasad Singh (No. 14587086W now JC-765569F), 27 Nov 2010/14 Nov 2010*
- Hav to be Nb Sub PTR & DECTR
Joydeb Das (No. 14611763K now JC-765452H), 26 Nov 2010/01 Nov 2010*
- Jaswant Singh (No. 14612270P now JC-765453L), 02 Nov 2010/01 Nov 2010*
- Pradeep K (No. 14612959K now JC-765501A), 01 Nov 2010
- Shashi Kant Rai (No. 14613117L now JC-765504N), 01 Dec 2010
- Hav to be Nb Sub Welder
Chanchal Singh (No. 14582362K now JC-765578H), 01 Dec 2010
- Ram Kant Prasad (No. 14577623H now JC-765450X), 01 Nov 2010
- Hav to be Nb Sub Master Tech SA
Bhoopathi Reddy (No. 14598871M now JC-765515A), 08 Nov 2010/01 Nov 2010*
- Hav to be Nb Sub Armd Tech (AFV/AD)
Rudra Pal Singh (No. 14574872W now JC-765445M), 03 Nov 2010
- Hav to be Nb Sub AVN Tech AF
Vijaya Shankara Yadav (No. 14575186P now JC-765411Y), 07 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Jojippan Antony (No. 14636515Y now JC-765518N),
11 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hirendra Sinha (No. 14574414A now JC-765521N),
13 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Sanjay Kumar Pandey (No. 14576233N now JC-765462M),
01 Dec 2010

Kailash Chandra Singh (No. 14574783X now JC-765442Y), 01 Nov 2010

Shokaharan Singh (No. 14576228H now JC-765460F),
01 Dec 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Shiv Pal Gurjar (No. 14625342M now JC-765473Y),
02 Nov 2010/01 Oct 2010*

Gour Shivanandan G Singh (No. 14607743Y now JC-765493M), 01 Dec 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (AF)

Harendra Kumar Singh (No. 14636424P now JC-765479A), 03 Nov 2010/01 Oct 2010*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub SKT

Sita Ram Kelwa (No. 14613880N now JC-765561P),
01 Dec 2010

Banwari Lal Sharma (No. 14614021P now JC-765568Y),
01 Jan 2011

Aidia Nageshwar Rao (No. 14601905H now JC-765552N), 22 Dec 2010/31 Oct 2010*

Maanash Singha Roy (No. 14613919P now JC-765564H),
01 Dec 2010

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Karamvir Singh Malik (No. 14592312M now JC-765618Y), 01 Jan 2011

Shree Niwas Pal (No. 14593014H now JC-765622P),
01 Jan 2011

Joga Singh (No. 14586818P now JC-765615L), 01 Jan
2011/05 Dec 2010*

Satyavir (No. 14592272W now JC-765616N), 01 Jan
2011

Satish Kumar Singh (No. 14593011P now JC-765620W),
01 Jan 2011

Paras Nath Singh (No. 14593029L now JC-765623K),
01 Jan 2011

Janendra Nath Gupta (No. 14592308K now JC-765617W), 01 Jan 2011

Paramjit Singh (No. 14589935L now JC-765613A),
01 Jan 2011/10 Oct 2010*

Satendra Singh (No. 14592756W now JC-765621Y),
01 Jan 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

SK Apter Ali (No. 14622046W now JC-765703F),
01 Jan 2011/01 Dec 2010*

Ajai Kumar Jaiswal (No. 14620988N now JC-765673P),
31 Dec 2010/01 Nov 2010*

Manokamana Tiwari (No. 14622208W now JC-765702Y), 15 Dec 2010/01 Dec 2010*

K Prabahar (No. 14620490N now JC-765668K), 27 Dec
2010/01 Nov 2010*

Randhir Shrikrushna Dev Ram (No. 14620994F now JC-765674X), 21 Dec 2010/01 Nov 2010*

Kali Charan Mohanty (No. 14622055X now JC-765758L), 05 Jan 2011/01 Dec 2010*

Chitrajan Kumar (No. 14621265L now JC-765687P),
31 Dec 2010/01 Dec 2010*

Rajesh Singh Rathore (No. 14619843W now JC-765654K), 01 Dec 2010/01 Nov 2010*

Md Rasheed (No. 14620872X now JC-765670F), 05 Jan
2011/01 Nov 2010*

Brahmanand Singh (No. 14620366M now JC-765665W),
24 Dec 2010/01 Nov 2010*

Chandeshwar Rai (No. 14621023H now JC-765681N),
22 Dec 2010/01 Dec 2010*

Sunil K A (No. 14620038Y now JC-765660X), 28 Dec
2010/01 Nov 2010*

Suresh Parmar (No. 14621989H now JC-765701W),
27 Dec 2010/01 Dec 2010*

Sunil Kumar Singh (No. 14620142M now JC-765661A),
05 Nov 2010/01 Nov 2010*

Bassappa Chougala (No. 14622077W now JC-765760H),
08 Jan 2011/01 Dec 2010*

Kailash Chand Gurjar (No. 14621638N now JC-765691X), 21 Dec 2010/01 Dec 2010*

Rajendra Kumar Naktode (No. 14621616P now JC-765689A), 23 Dec 2010/01 Dec 2010*

Om Prakash Basawana (No. 14620707M now JC-765675A), 23 Dec 2010/01 Nov 2010*

Ghan Shyam Tiwary (No. 14620717W now JC-765677L),
28 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Hamid Ali (No. 14584485P now JC-765722M), 07 Jan
2011/01 Dec 2010*

Jitendra Kumar (No. 14585085P now JC-765725M),
06 Jan 2011/01 Jan 2011*

M Easwaran (No. 14584202H now JC-765638M),
20 Dec 2010/01 Dec 2010*

Ravindra Kumar Singh (No. 14584471P now JC-765721K), 01 Jan 2011/01 Dec 2010*

Ram Kumar Yadav (No. 14584103A now JC-765636F),
11 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Armt (Afv Ad)

Brij Kishore (No. 14578259F now JC-765742A), 03 Jan
2011/01 Jan 2011*

Hav to be Nb Sub Master Tech A Veh

Surendra Babu GC (No. 14620770F now JC-765767M),
05 Jan 2011/01 Jan 2011*

Sanjay Kumar Singh (No. 14621335Y now JC-765772X),
07 Jan 2011/01 Jan 2011*

Akhilesh K (No. 14622069X now JC-765759N), 06 Jan
2011/01 Dec 2010*

Harendra Kumar (No. 14620709X now JC-765764Y),
01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Dw

Maleppa Talageri (No. 14665257M now JC-765598W),
03 Jan 2011/01 Dec 2010*

Devendra Singh (No. 14587183N now JC-765605F),
01 Jan 2011

PS Vijaian (No. 14588450W now JC-765610M), 01 Jan
2011

Ram Dayal Jatav (No. 14587196L now JC-765606K),
01 Jan 2011

Santosh Kumar (No. 14587686Y now JC-765603W),
01 Jan 2011

P Ramesh (No. 14621068H now JC-765583N), 23 Dec
2010/28 Nov 2010*

Shri Niwas Singh (No. 14587935M now JC-765589P),
13 Dec 2010/01 Dec 2010*

Devendra Kumar Bajpai (No. 14588698A now JC-
765602N), 01 Jan 2011

Parshuram Yadav (No. 14589798X now JC-765607M),
01 Jan 2011

Yaduvir Singh (No. 14588682P now JC-765601L),
27 Dec 2010/01 Dec 2010*

Ram Naresh (No. 14587689M now JC-765604Y),
01 Jan 2011

Ashok Kumar Mohapatra (No. 14588475H now JC-
765611P), 08 Jan 2011/01 Jan 2011*

M M Barkatali (No. 14587576F now JC-765608P),
01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Rameshwar Dass (No. 14601105K now JC-765492K),
01 Dec 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

V Suresh Kumar (No. 14618140H now JC-764733M),
12 Jan 2011/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Purna Masi Ram (No. 14578054M now JC-765713L),
01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Tech Rdr

L Nila Kumar Singha (No. 14578715F now JC-765714N),
27 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Raghubeer Sahai (No. 14600740H now JC-765652Y),
15 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech (Opto Elect)

Bikram Singh Karkee (No. 14619191H now JC-
765777W), 13 Jan 2011/01 Dec 2011*

Hav to be Nb Sub Avn Tech Elect

Lankeshwar Roy (No. 14608737X now JC-765526M),
01 Jan 2011

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Satyawart (No. 14580586L now JC-765857N), 01 Mar
2011

Sunil Kumar (No. 14580764H now JC-765858W),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Ptr & Dectr

Sita Ram Singh (No. 14613378Y now JC-765865M),
01 Mar 2011

Subhash Chand (No. 14613302Y now JC-765863F),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

P Madhu (No. 14621444L now JC-765854A), 17 Feb
2011/01 Nov 2010*

Mithilesh Kumar (No. 14619058A now JC-765042M),
04 Mar 2011/01 Jul 2010*

Ajay Prasad (No. 14618727F now JC-765781Y), 01 Jan
2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Sukhendu Chandra Pal (No. 14580091Y now JC-
765833K), 12 Feb 2011

Padum Kumar Gogal (No. 14578928P now JC-765739A),
01 Feb 2011

Hav to be Nb Sub Welder

Surendra Singh (No. 14583125M now JC-765842L),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Mach

Swaminath Yadava (No. 14592954F now JC-765752K),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Balbant Ram (No. 14619117F now JC-765094H), 04 Mar
2011/01 Jul 2010*

Phaple Navnath Dattu (No. 14622318L now JC-
765789L), 01 Feb 2011

Ingale Vishwash G (No. 14621884Y now JC-765698F),
20 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Ramesh Kumar (No. 14616191X now JC-765811L),
01 Mar 2011

Hari Pada Das (No. 14625369K now JC-765472W),
02 Nov 2010/01 Oct 2010*

Mohd Arif Ali (No. 14605660P now JC-765776N),
06 Jan 2011/01 Jan 2011*

Sandeep Kumar Sharma (No. 14615936N now JC-
765809N), 01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Tech SA

K Sasi (No. 14597575P now JC-765639P), 13 Dec 2010/
01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Networking

Niranjan Kumar Yadav (No. 14616455N now JC-
765136K), 01 Aug 2010

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Nand Kishore (No. 14591749N now JC-765756A),
01 Mar 2011

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Shambhu Nath Singh (No. 14587743P now JC-765593X),
18 Dec 2010/01 Dec 2010*

Bali Ram Sharma (No. 14585572P now JC-765596L),
21 Dec 2010/01 Dec 2010*

Pradeep Kumar PV (No. 14586495X now JC-765585Y),
04 Dec 2010/01 Dec 2010*

Teg Ram (No. 14588037A now JC-765590K), 04 Dec
2010/01 Dec 2010*

Jay Prakash Singh (No. 14586871A now JC-765600H),
04 Dec 2010/01 Dec 2010*

Sunil Kumar Maity (No. 14587865Y now JC-765588M),
06 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub/Clk (SD)

Bhisam Prasad (No. 14590805P now JC-765398A),
08 Nov 2010/01 Oct 2010*

Madan Mohan Singh (No. 14593514A now JC-765630A),
01 Feb 2011

Ram Kishore Singh (No. 14591279N now JC-765402X),
04 Jan 2011/01 Oct 2010*

Man Singh Rawat (No. 14592689W now JC-765619F),
01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

Daleep Kumar (No. 14618172L now JC-765528X),
26 Nov 2010/03 Oct 2010*

Kamal Singh (No. 14626799A now JC-765541F), 04 Jan
2011/01 Nov 2010*

Papendra Singh (No. 14627315F now JC-765779F),
10 Jan 2011/03 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Shaji K (No. 14625443A now JC-765487Y), 04 Jan 2011/
01 Nov 2010*

Jitendra Kumar Chandela (No. 14625350L now JC-
765488F), 01 Nov 2010

Hav to be Nb Sub Avn Tech AE

Rajesh Kumar (No. 14622629Y now JC-765477P),
10 Nov 2010/01 Nov 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Rdr

Tikam Singh (No. 14624891A now JC-764735X), 13 Jan
2011/01 Apr 2010*

Manoj Kumar Singh (No. 14619409K now JC-764734P),
11 Jan 2011/01 Apr 2010*

Savaliya Shailesh Kumar D (No. 14628657F now JC-
765780W), 06 Jan 2011/01 Dec 2011*

Hav to be Nb Sub Tech Rdr

Rajbir Singh (No. 14580478F now JC-765716Y), 01 Jan
2011

Hav to be Nb Sub Skt

Ramesh Ray (No. 14614022X now JC-765814Y), 14 Jan
2011/01 Jan 2011*

Bibuthi Bhushan Padhiary (No. 14613893L now JC-
765562X), 01 Dec 2010

Prabir Mondal (No. 14613929Y now JC-765559X),
01 Dec 2010

Bijaya Kumar Pradhan (No. 14613895W now JC-765556K), 01 Dec 2010

Hav to be Nb Sub Opr Dvr (Rec)

Saudan Singh (No. 14583297F now JC-765720F), 03 Jan 2011/01 Dec 2010*

Surendra Singh (No. 14584082P now JC-765634W), 18 Dec 2010/01 Dec 2010*

Sunit Singh (No. 14583826H now JC-765633N), 11 Dec 2010/01 Dec 2010*

Punwasi Ram (No. 14584904F now JC-765724X), 08 Jan 2011/01 Dec 2010*

Chandra Mohan (No. 14584084A now JC-765635Y), 15 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech A Veh

Suresh Dhar (No. 14615071M now JC-765215Y), 20 Jan 2011/01 Sep 2010*

Brij Pal (No. 14621226M now JC-765768P), 06 Jan 2011/01 Jan 2011*

Javed Iftekhar (No. 14620681H now JC-765762N), 11 Jan 2011/01 Dec 2010*

Ram Vinay Singh (No. 14621334W now JC-765711P), 13 Jan 2011/01 Jan 2011*

Rajender Parasad (No. 14620727A now JC-765766F), 05 Jan 2011/01 Jan 2011*

Lalat Kishore Baliar Singh (No. 14620683M now JC-765763W), 22 Jan 2011/01 Dec 2010*

Manaranjan Sahoo (No. 14620710M now JC-765765F), 05 Jan 2011/01 Jan 2011*

Trinath Mohanta (No. 14621477W now JC-765744H), 12 Jan 2011/01 Jan 2011*

Manbas Yadav (No. 14621259X now JC-765770M), 06 Jan 2011/01 Jan 2011*

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

S Mahesh (No. 14620795N now JC-765667F), 01 Jan 2011

Rajesh Kumar (No. 14620968A now JC-765678N), 17 Jan 2011/01 Jan 2011*

Rajesh Kumar Yadav (No. 14620985A now JC-765672M), 18 Jan 2011/01 Jan 2011*

Vinay Kumar Singh (No. 14620730A now JC-765680L), 26 Dec 2010/01 Dec 2010*

Jitendra Kumar (No. 14621014F now JC-765676H), 01 Nov 2010

Shalendra Singh Tomar (No. 14622098M now JC-765761L), 05 Jan 2011/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Krishna Kumar (No. 14576911H now JC-765712H), 01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech A Veh

Vakil Prasad Singh (No. 14577632K now JC-765735K), 01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Support Staff

Puskar Singh (No. 14585817A now JC-765732W), 01 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Armt Tech Afv AD

Ramayan Prasad Patel (No. 14581380A now JC-765747Y), 17 Jan 2011/15 Jan 2011*

Amar Singh (No. 14579778W now JC-765745N), 18 Jan 2011/15 Jan 2011*

Ranjit Singh (No. 14579358W now JC-765744L), 15 Jan 2011

Atul Saikia (No. 14578894M now JC-765743H), 15 Jan 2011

Hav to be Nb Sub Tech SA

Rabi Shankar Prasad (No. 14599445L now JC-765649Y), 20 Dec 2010/01 Dec 2010*

Manindra Chandra Barman (No. 14600430X now JC-765651W), 19 Jan 2011/01 Dec 2010*

Patil Ambaji Krishna (No. 14601564H now JC-765707X), 01 Jan 2011

Asataman T (No. 14601511L now JC-765709H), 01 Jan 2011

Remtesan P V (No. 14601287H now JC-765704K), 01 Jan 2011

Umananda Singh (No. 14601940L now JC-765710X), 01 Jan 2011

Dasarath Singh Chauhan (No. 14601349K now JC-765706P), 01 Jan 2011

Dharma Pal Singh (No. 14598210M now JC-765711A), 01 Jan 2011

Ravi Karan (No. 14601291L now JC-765705M), 01 Jan 2011

Malay Kanti Sarkhel (No. 14600825Y now JC-765650N), 04 Jan 2011/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Mach

Rajendra Singh (No. 14588106L now JC-765748F), 01 Jan 2011

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 282, dated 24th May 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Samuel Lalrintluanga (MS-15425W)(MR-09102X),
AMC, 13 Oct 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ranjeeta Angomchanu (MS-15438N)(MR-09070A),
AMC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22 Jul 2006 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Mukul Gupta (MS-15430F)(MR-09098A), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Thongam Sachin Singh (MS-15636Y)(MR-09097X),
AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

C Malsawmkima (MS-15424N)(MR-09096P), AMC,
13 Oct 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kotor Koya (MS-15340A)(MR-09094K), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kamal Kumar (MS-15119F)(MR-09092Y), AMC, 16 Dec 2005

With seniority for pay and promotion from 16 Jun 2005 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Monendra Singh Arya (MS-15595A)(MR-09090N),
AMC, 06 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sonavane Shrikant Ashokrao (MS-15215W)(MR-09088W), AMC, 20 Jan 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Varun Kumar Gupta (MS-15401M)(MR-09087N), AMC,
20 Jan 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 14 Jul 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rajeev Ranjan Kumar (MS-15632H)(MR-09083X),
AMC, 06 Sep 2007

With seniority for pay and promotion from 06 Mar 2007 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Aman Deep Raj (MS-15558M)(MR-09080K), AMC,
17 Jul 2007

With seniority for pay and promotion from 17 Jan 2007 (this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Pandya Kapil Hareshkumar (MS-15191X)(MR-09066X),
AMC, 20 Jan 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Neetu Lal (MS-15618W)(MR-09067A), AMC, 06 Sep 2007

With seniority for pay and promotion from 06 Sep 2004 (this includes 36 months for antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 04 Apr 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Lt

Puneet Dewan (MS-14943K)(MR-09069L), AMC, 21 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Santosh Kumar Singh (MS-15285P)(MR-09082P), AMC,
13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Himanshu Sharma (MS-15273A)(MR-09086L), AMC,
13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 283, dated 25th May 2011—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Sep 2010 :—

(Pers No.), Rank, Name & Arm

(IC-34076) Col (TS) Mukul Dobhal, Inf

(IC-34339) Col (TS) Arun Kumar, Mech Inf

(IC-34351) Col Satinder Singh Bajwa, Inf

(IC-34518) Col Vijay Ramakant Gadekar, Arty

(IC-34576) Col (TS) Vijay Bali, Arty

(IC-34599) Col (TS) Satpal Singh Kohli, Inf

(IC-34766) Col Nediumveetil Muralidhar, Inf

(IC-34776) Col Sanjeev Kumar Bakshi, Inf

(IC-34840) Col (TS) Rajiv Kumar Vohra, ASC

(IC-34953) Col (TS) Sajukha Rengma, Inf

(IC-35042) Col (TS) Nalin Kishore, Engrs

(IC-35339) Col (TS) Gajanan Prabhakar Kale, Inf

(IC-35485) Col Rajiv Talwar, AC

(IC-35696) Col (TS) Hemant Krishna, Inf

(IC-35711) Col (TS) Naveen Khullar, AC

(IC-35735) Col (TS) Inderjit Singh Matharu, Arty

(IC-35776) Col (TS) Harish Kumar Vaidya, Inf

(IC-35777) Col (TS) Ashutosh Mukerji, Arty

(IC-37125) Col (TS) Rajeshwer Sharma, Inf

(IC-37179) Col Vijay Kumar Chhibber, Inf

(IC-37232) Col Yogendra Kumar Mathur, Arty

(IC-37272) Col (TS) Anto Chacko, Arty

(IC-37420) Col Vijay Kumar Yadav, Inf

(IC-37465) Col (TS) Sumer Singh, Mech Inf

(IC-37507) Col (TS) Tarun Kumar Bhanwra, AC

(IC-37657) Col (TS) Syed Shabbir Mehdi, AAD

(IC-37860) Col (TS) Birendra Kumar Bastia, EME

(IC-38129) Col (TS) Srinath Satyan, Inf

(IC-38199) Col (TS) Ashok Kumar Sharma, EME

(IC-38242) Col (TS) Shailendra Kumar, Sigs

(IC-38623) Col Ajit Singh Rathore, MF

(IC-40866) Col Sushil Kumar Chand, AOC

(IC-41060) Col (TS) GG Mathews, Sigs

(IC-41460) Col (TS) Ram Naresh Prasad Singh, EME

(IC-41674) Col (TS) Gurmeet Singh Gill, Arty

(IC-41922) Col (TS) Arjun Singh, Arty

(IC-41981) Col (TS) Phani Bhushan Chodhuri, Arty

(SL-3407) Lt Col Jaswant Singh, EME

(SL-3482) Lt Col Kuldip Singh, Sigs

(SL-3885) Lt Col Eappachan KV, QM

(SL-3969) Lt Col Bal Krishan Pandit, RO

(SL-4016) Lt Col Ran Bahadur Rana, QM

(SL-4036) Lt Col Navratan Singh, RO

(SL-4076) Lt Col Anand Kumar Pandey, RO

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Oct 2010 :—

(Pers No.), Rank, Name & Arm

(IC-34113) Col (TS) Mahendra Bahadur Saxena, Inf

(IC-34790) Col Suresh Balkrishna Ghorpade, Inf

(IC-34848) Col (TS) Madan Mohan Tudu, Inf

(IC-34858) Col Ravinder Kumar Sabharwal, Arty

(IC-34933) Col Sanjay Gopal Puranik, Arty

(IC-35169) Col Kuldeep Chand Dogra, Inf

(IC-35297) Col Joth Singh Rawat, Inf

(IC-35301) Col Charanjit Singh Malik, AC

(IC-35278) Col (TS) Sanjiv Dinkar Redar, Inf

(IC-35495) Col (TS) Neeraj Mehra, Inf

(IC-35680) Col Baldev Singh, Inf

(IC-35683) Col (TS) Baljit Singh, Inf

(IC-35689) Col (TS) Rajiv Kapur, Arty

(IC-35739) Col (TS) Sudarshan Singh, Inf

- (IC-35780) Col (TS) Vijay Kumar, Inf
 (IC-35891) Col (TS) Vijay Shankarrao Kalange, AEC
 (IC-37070) Col (TS) Rakesh Kumar Shah, Inf
 (IC-37193) Col Suresh Adhikari, Inf
 (IC-37227) Col (TS) Sudhir Chawla, Inf
 (IC-37379) Col Raghuandan Singh Raghav, Inf
 (IC-37484) Col (TS) Hemant Prabhakar Kende, Arty
 (IC-37703) Col (TS) Rajendran D, AAD
 (IC-37708) Col (TS) Paramjit Singh, Inf
 (IC-38168) Col (TS) Jagjit Singh Sandhu, Inf
 (IC-38254) Col (TS) Shekhar Mehra, Engrs
 (IC-38384) Col (TS) Jaswinder Singh, Arty
 (IC-38498) Col (TS) Sunil Soni, Inf
 (IC-39029) Col (TS) Rupendra Kumar Singhai, EME
 (IC-39039) Col (TS) Joseph Mathew, AEC
 (IC-39198) Col (TS) Sanjeev Singh Rana, AC
 (IC-39423) Col (TS) Rohtas Singh, AEC
 (IC-40391) Col (TS) Jagdev Singh Kheira, Arty
 (IC-41713) Col (TS) Sandev Singh Sambyal, Inf
 (IC-41831) Col (TS) Kesiraju Naga Veeravenkata Vijaykumar, Engrs
 (IC-42066) Lt Col Dinesh Chandra Sharma, Int
 (SL-3410) Lt Col Abraham PV, EME
 (SL-3671) Lt Col Puran Singh, QM
 (SL-3685) Lt Col Bajpai DS, EME
 (SL-3719) Lt Col Karna Prakash Rai, QM
 (SL-3733) Lt Col T Muraleedharan, EME
 (SL-3904) Lt Col Mohan Arangam G, Arty
 (SL-3968) Lt Col Raveendran CT, Sigs
- The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Nov 2010 :—
- (Pers No.), Rank, Name & Arm
 (IC-34101) Col Dinesh Sharma, Sigs
 (IC-34446) Col Chandra Pal Aswal, Arty
 (IC-34473) Col (TS) Bhushan Dinar Kalyani, Inf
 (IC-34479) Col Nilesh Kunwar, Inf
 (IC-34571) Col Aiyala Savita Kumaraswamy, Inf
 (IC-35283) Col (TS) Randip Sahu, Int
 (IC-35303) Col Akhil Sah, Inf
- (IC-35304) Col Rajiv Kumar Joshi, Engrs
 (IC-35467) Col Bijay, Sigs
 (IC-35508) Col (TS) Ramesh Kumar Jhakar, Inf
 (IC-35551) Col (TS) Pradeep Bhutani, Engrs
 (IC-35699) Col (TS) Manobendra Roy, Inf
 (IC-37198) Col (TS) Manoj Kumar Pande, Sigs
 (IC-37632) Col Davidson Kolath, Inf
 (IC-37713) Col (TS) Vijay Kumar Pillai, Inf
 (IC-37757) Col (TS) Abhilash Chander Acharya, Inf
 (IC-38171) Col (TS) Hari Kumar T, AAD
 (IC-38293) Col Onkar Singh Yadav, Inf
 (IC-38421) Col (TS) Karamvir Singh Gahlawat, Arty
 (IC-38444) Col (TS) Milind Gangadhar Shirondkar, Inf
 (IC-38519) Col (TS) Madhumala Satyanand Rao, Inf
 (IC-38546) Col (TS) Anil Kumar Lall, Inf
 (IC-38578) Col (TS) Ashok Kumar Mathur, Inf
 (IC-38588) Col Sudhir Chandra Mishra, AOC
 (IC-39928) Col (TS) Vijayakumaran Pillai K, Arty
 (IC-40263) Col Thankachan KJ, Sigs
 (IC-40483) Col (TS) Radhakrishnan Nair P, Arty
 (IC-41642) Lt Col Ravindran, Int
 (IC-41671) Col (TS) Thomas TK, Arty
 (IC-41718) Lt Col Chandra Bhanu KC, AC
 (IC-41719) Col (TS) Skaria Philip, AC
 (IC-41972) Col Mohinder Singh, ASC
 (IC-42116) Col Kuriakose AK, Inf
 (SL-2996) Col (TS) Vijay Kumar Patyal, APTC
 (SL-3164) Lt Col Jagdish Prasad Yadav, RO
 (SL-3352) Lt Col Lakhbir Singh, RO
 (SL-3628) Lt Col Raj Shamsher Rai, QM
 (SL-3645) Lt Col Joginder Singh, APTC
 (SL-3660) Lt Col Jai Shankar Prasad Bhagat, RO
 (SL-3804) Lt Col Sasidharan NK, EME
 (SL-3814) Lt Col Bhawan Kumar, EME
 (SL-3858) Lt Col Yadubir Singh Rawat, QM
 (SL-3946) Lt Col Soman Pillai P, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Dec 2010 :—

- (Pers No.), Rank, Name & Arm
 (IC-34054) Col (TS) Arin Dam Dey, Mech Inf
 (IC-34343) Col (TS) Vijay Singh Chaher, Inf
 (IC-34465) Col (TS) Sukhvir Singh Kadian, Inf
 (IC-34597) Col Rishikesh Moitra, Inf

(IC-34802) Col Sushil Kumar Grover, Arty
 (IC-34843) Col Vikram Taneja, AC
 (IC-34935) Col (TS) Solanki GM, Arty
 (IC-34987) Col (TS) Adapaka Narayana, Engrs
 (IC-34999) Col (TS) Om Parkash Batra, AOC
 (IC-35165) Col (TS) Bharat Singh Bisht, AAD
 (IC-35614) Col (TS) Chander Parkash Ramchandani, Engrs
 (IC-35743) Col Sunil Kapoor, AC
 (IC-37055) Col Rabindra Nath Ghosh Dastidar, Mech Inf
 (IC-37203) Col (TS) Vijay Kumar Sharma, Inf
 (IC-37259) Col (TS) Sandeep Kumar, Engrs
 (IC-37488) Col (TS) Kaumi Deep Singh Rait, AOC
 (IC-37519) Col (TS) Tejinder Pal Singh Kandra, Arty
 (IC-37630) Col Suraj Prakash Yadav, AAD
 (IC-37651) Col (TS) Bharat Bhushan Sharma, Arty
 (IC-37695) Col (TS) Jitinder Pal Singh, AC
 (IC-37726) Col (TS) Sarab Jit Singh, AOC
 (IC-38018) Col Sunil Venugopal, Inf
 (IC-38185) Col (TS) Sushil Kumar Baunthiyal, EME
 (IC-38469) Col (TS) Bhupesh Mahajan, Inf
 (IC-38552) Col (TS) Rajesh Kumar Sharma, Arty
 (IC-39053) Col (TS) Bhishmader Bhattacharya, EME
 (IC-39353) Col (TS) Atter Singh Ahlawat, AOC
 (IC-40733) Col (TS) Joseph George, Arty
 (IC-41029) Col (TS) Madhaw Shyam Singh, Int
 (IC-41216) Col (TS) Kundan Singh Negi, Inf
 (IC-41373) Col (TS) Bisweswar Rout, Inf
 (IC-41676) Col Anup Thapa, Inf
 (IC-41819) Col (TS) Upkar Singh Nerwal, EME
 (IC-41965) Col Bahadur Singh Kaira, EME
 (IC-42071) Col (TS) S Ravindran Pillay, Inf
 (SL-3395) Lt Col Sahendra Pal Singh, Sigs
 (SL-3396) Lt Col Parbhak Singh, Sigs
 (SL-3580) Lt Col Bhagwan Singh, QM
 (SL-3672) Lt Col Andrew Noel, AEC
 (V-355) Col Madhurendra Kumar, RVC

No. 284, dated 25th May 2011—In terms of Section 5(1) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following modifications/additions are made in this office notification of even no dated 07.12.2010. Initially the main notification was published vide notification No. 283 dated 14.06.2008 and subsequently amended from time to time :—

Name of the Central Public Information Officer with Design & Tel No., Name of Appellate Authority with Design & Tel No., Subject Matter

Alka Joshi, US (Works), Tel No. 23016237, Rajinder Kumar, DS (Works), Tel No. 23014943, Matters related to the D (Works)

V Rajaram, US, (GS-V), Tel No. 23015601, Gitanjali Gupta Kundra, Dir (G), Tel No. 23011896, Military operations and intelligence, Border matters/disputes/incidents/neighbouring countries

U K Nair, US, (GS-I), Tel No. 23012972, Gitanjali Gupta Kundra, Dir (G), Tel No. 23011896, Internal Security issues

Rajan Kumar Jha, US, (GS-I), Tel No. 23012205, Gitanjali Gupta Kundra, Dir (G), Tel No. 23011896, Rashtriya Rifles, Establishment matters of Army, HQs integrated Defence Services, Deputations abroad of Army officers in UN, Peacekeeping Missions

Gurdeep Singh, US, (GS-V), Tel No. 23012501, Gitanjali Gupta Kundra, Dir (G), Tel No. 23011896, Military operations and intelligence, Border matters/disputes/incidents/neighbouring countries

Devashish Bhardwaj, US, (GS-V), Tel No. 23015601, Gitanjali Gupta Kundra, Dir (G), Tel No. 23011896, Military operations and intelligence, Border matters/disputes/incidents/neighbouring countries

Jairaj, US/DS, (GS-III), Tel No. 23016131, S C Sharma, Dir (GS-III), Tel No. 23013789, TA, Map restriction policy, Army assistance to State Govt./Civil Authorities/film companies in policy and individual cases, Security clearance, Spectrum

2. S. No. 15 of the notification dated 07 Dec 2010 may be deleted and the following may be added :—

Name of the Central Public Information Officer with Design & Tel No., Name of Appellate Authority with Design & Tel No., Subject Matter

Y S Awana US, (Air-III), Tel No. 23010231/Ext. 5359, Anajli Singh, Dir (Air-I), Tel No. 23016304, Works relating to the D (Air-III)/Desk & Sections

A S Chowdhury US, (Air-II), Tel No. 23013058, Anajli Singh, Dir (Air-I), Tel No. 23016304, Works relating to the D (Air-III)/Desk & Sections

3. In the notification dated 07 Dec 2010, the subject matter of S. No. 26 (i.e. against Shri N K Kashmira) may be read as Establishment/administrative matters of AOC,

JAYANTA CHAKRABARTY
 By Dir
 MS-7A

EME.....instead of Establishment/administrative matters of ASC, EMR and so on. The remaining texts may be read as it is.

4. In case, any of the officers mentioned in the notification has relinquished charge or is on training or on long leave, his link officer or the officer who has been entrusted with

the charge will act as Central Public Information Officer/Appellate Authority till the regular incumbent takes charge.

CPIO & Appellate Authority of the subjects not covered above remains the same as in the earlier notifications on the subject.

K MURALI
Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011